

# दैनिक पुष्कर

www.dainikpukar.com

उदयपुर मंगलवार दिनांक 10 दिसम्बर 2024

दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख हिन्दी दैनिक

## संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, कल पदभार संभालेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास को जगह लेंगे। दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने सोमवार को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में तीन साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थीं। नए गवर्नर ऐसे समय कार्यभार संभाल रहे हैं जब केंद्रीय बैंक मुश्किल स्थिति में है। आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव बढ़ रहा है क्योंकि जुलाई-सितंबर की अवधि में विकास दर सात-तिमाही के निचले स्तर 5.4% पर आ गया है। दास के टैन्चर में आरबीआई ने महंगाई के रिस्क का हवाला देते हुए लगभग दो वर्षों तक ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा।

**फाइनेंस और टेक्सेशन के एक्सपर्ट हैं संजय मल्होत्रा :** राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय मल्होत्रा के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है।

## यूपीएससी मेन्स का रिजल्ट जारी, 2845 अभ्यर्थी हुए पास



नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 2024 के सिविल सेवा परीक्षा (ग्रुप) के मेन्स के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एजाम देते वाले कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेन्स क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स अब इंटरव्यू राउंड के लिए आगे जाएंगे। इस बार यूपीएससी भारतीय विदेश सेवा (आईएएस), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) समेत कुल 1056 पदों पर भर्ती करने जा रही है।

## बर्फबारी के बाद कश्मीर में प्रचंड शीतलहर, गुलमर्ग में -9 डिग्री पर



श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के एक दिन बाद सोमवार को कश्मीर के कई इलाकों में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड रहने का अनुमान बताया है। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि उत्तरी कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। कश्मीर घाटी के मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा कि आने वाला सप्ताह ठंड और शुष्क रहेगा। इसमें पहले आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को गुलमर्ग, कुपवाड़ा और पीर की गली समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे मुगल रोड और सिंधन रोड बंद हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुगल रोड, सिंधन रोड और श्रीनगर-सोमनगर और गुमरी रोड बर्फ जमा होने के कारण अभी भी बंद हैं।

## पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान पुलिस-प्रशासन के आगे झुके, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया 'दिल्ली चलो' मार्च



पटियाला (एजेंसी)। पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो मार्च अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधर ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को कोई भी जथा दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेगा। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को दिल्ली की ओर अपना मार्च स्थगित कर दिया था, क्योंकि शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले दागे जाने से 7 किसान घायल हो गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों के एक समूह ने 6 और 8 दिसंबर को पैदल दिल्ली तक मार्च करने के दो प्रयास किए, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस के सुरक्षाकर्मियों ने आगे बढ़ने की

अनुमति नहीं दी और उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया था। इस बीच, हरियाणा के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आंदोलनकारी किसानों के मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए किसान यूनियनों के साथ उनकी बैठक

हो रही है। द ट्रिब्यून के मुताबिक, पटियाला रेंज के डीआईजी मनीष सिंह सिद्धू की अग्रुआई में एक टीम ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मुलाकात की है और यूनियन के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे डल्लेवाल को दवा लेने के लिए कहें।

सूत्रों के मुताबिक, भूख हड़ताल के बाद डल्लेवाल की तबीयत ठीक नहीं है। यह मुलाकात खनौरी बॉर्डर के पास हुई है, जहां डल्लेवाल किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी तरफ, किसान नेता सरवन सिंह पंधर ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस और सरकार किसानों से दुश्मन देश के लोगों जैसा बर्ताव कर रही है। शंभू सीमा पर मीडिया कि बातचीत में पंधर ने कहा कि हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपने देश की राजधानी नहीं जा सकते। इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खुद 'भ्रमि'त' लग रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को

दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका, दिल्ली जाने के लिए और भी कई साधन हैं और किसान प्रश्न उठा रहे हैं। जबकि सत्ता से सवाल करना लोकतान्त्रिक अधिकार है। पंधर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवीशर्मा बिट्टू कहते हैं कि पैदल आइए स्वागत करेंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोलते हैं इस तरह आएं तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी तो हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि पैदल जाने वालों को रोकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छे प्रशासन दे रहे हैं, लेकिन यह पांच-सात मंत्रियों के बयान ही नहीं आपस में मिलते। उन्होंने कहा, अपने बीच राय मशविरा कर लिया करो कहां हों करना है, कहां न करना है!



## जयपुर में पीएम बोले- बहुत बड़ा है राजस्थानियों का दिल

## राइजिंग के साथ-साथ रिलायबल, रिसेप्टिव हैं राजस्थान, खुद को रिफाइन करना भी जानता है

जयपुर (पुष्कर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- राजस्थान राइजिंग तो है ही रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है। समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पॉसिव रिफॉर्मिब सरकार बनाई है। राजस्थान के विकास से देश को भी मिलेगी नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। यहां के लोगों का परिश्रम, ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छाशक्ति, गठ्ठ को खनौपर रखने की भावना राजस्थान की मिट्टी के कण-कण में समाई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें



एजीबीशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जब राजस्थान की परंपरागत सांगानेर प्रिंट, इसकी कार्यप्रणाली और इनके उत्पादों के बारे में जाना तो उन्होंने इसके प्रति उत्सुकता दिखाई। मोदी ने कलाकार से बात की व अपने हाथों से एक ब्लॉक

को हाथ में लेकर डिजाइन को अपने हाथों से प्रिंट किया। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे तक मोदी कार्यक्रम में रहे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हुए।

**35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से एमओयू हुआ :** खागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- समिट से पहले ही



सरकार 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से एमओयू कर चुकी है। इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहां के लोगों को मिलेगा। अब कृषि के साथ ही उद्योगों को भी प्रोत्साहन पाना जाएगा। हमने पहले साल में समिट का आयोजन इसलिए किया है कि आगे 4 सालों में हम निवेश का धरातल पर उतार सकें।

## जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के लिंक पर संसद में बवाल, लोकसभा ही स्थगित करनी पड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि उनका संबंध फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक (FDL-AP) से जुड़ी है। बता दें कि हंगरी मूल के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से इस संगठन को पैसा मिलता है। यह संगठन अलग कश्मीर की वकालत करता रहा है। सोनिया गांधी पर लगे इन आरोपों को लेकर सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के आरोपों को बेवुनियाद बताते हुए कांग्रेस सांसद सदन में जोरदार हंगामा करने लगे। इसके बाद लोकसभा को स्थगित करना पड़ गया। सुबह 11 बजे सदन के समवेत होने पर अध्यक्ष ओम बिस्ला के आसन पर आते ही विपक्षी सदस्य अपने स्थानों से उठ कर कुछ मुद्दे उठाने लगे, जो स्पष्ट सुनायी नहीं दिए। इस पर श्री बिस्ला ने पूछा कि क्या वे सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाना जाता है।



सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है कि सदन की कार्यवाही चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। इस पर विपक्षी सदस्य कुछ कहने लगे। उसके बाद बिस्ला ने तुरंत सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कोई भी देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर काम करता है तो सभी पार्टियों को मिलकर उसका विरोध करना

चाहिए। चाहे वह उसकी खुद की पार्टी का ही शख्स क्यों ना हो। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी पार्टी का भी कोई भारत विरोधी संगठन के साथ मिला हुआ है तो उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कांग्रेस को बता दिया था कि सविधान पर चर्चा लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर और राज्यसभा में

16 और 17 दिसंबर को की जाएगी। बता दें कि बीजेपी ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का विचार रखने वाले सोनिया गांधी के बीच कनेक्शन है। इससे पता चलता है कि विदेश संस्थाओं को प्रभाव किस तरह से भारत के आंतरिक मामलों पर पड़ रहा है। बीजेपी के मुताबिक सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता की वह से जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ

## आर्टिस्ट हाउस को बम से उड़ाने की धमकी, मेल आईडी पर भेजा मैसेज लिखा- मैं नरसंहार करना चाहता हूँ, सबको मरते देखना चाहता हूँ



उदयपुर (पुष्कर)। उदयपुर की द आर्टिस्ट हाउस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देर रात 2.45 बजे होटल के मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। सुबह 9 बजे होटल के मैनेजर ने मेल चेक किया तो होश उड़ गया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सूरजपोल पुलिस थाना और डींग स्ट्रॉड मौजूद है। आस-पास के इलाके की तलाशी ली जा रही है। हालांकि, धमकी के 5 मिनट बाद 2.30 मिनट तक भी पुलिस को कोई सदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

मेल में लिखा- मेरा नाम व्हाद केनर है, मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले नरसंहार के बारे में बताना चाहता हूँ। यह भारतीयों प्रति मेरी वृष्णा है जो उनके लालच और गलत तरीकों के कारण पैदा हुई। मैंने होटल के अनुपास 5 पाइप बम लगाए हैं। ये टाइम के अनुसार सुबह 9.30 पर ब्लास्ट होंगे। मैंने अन्य स्थानों पर भी अपनी स्टडी की है, इसके बाद हमारा गुप भारत को आतंकित कर देगा। हम सभी को मरते हुए देखना चाहते हैं। मेरा गुप 'केएसआर' भारत को बर्बाद कर देगा। बम ढूँढने रहिए, शुभकामनाएं

**गैट को भी सूचना :** आर्टिस्ट हाउस के ऑनर दीपक ने बताया कि रात हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आया था। सुबह होटल मैनेजर पहुंचे तो रूटीन में मेल चेक किया। इसपर धमकी भरा मेल देखा और पुलिस को सूचना दी। यहां कुल 30 कमरे हैं इसमें से 10 कमरे बुक हैं जिनमें टूरिस्ट ठहरे हुए हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने अंदर पूरे होटल की तलाशी ली और सभी चीजों को देखा लेकिन अभी तक कोई सदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

## मां के सामने बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम : वाटरप्रूफ कैमरे में 150 फीट पर दिखी मूवमेंट; बच्चे ने हाथ में पकड़ी रस्सी

दौसा (पुष्कर)। दौसा में घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया। बच्चा बोरवेल में 150 फीट गहराई में फंसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में वाटरप्रूफ कैमरा डाला, जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया। बच्चे ने रस्सी पकड़ी हुई है और सुरक्षित है। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 जेसीबी से बोरवेल के पास मिट्टी खोदी जा रही है। गहरी खुदाई के लिए एलएनटी मशीन भी बुलाई गई है। हादसा पापड़वा थाना इलाके के कालीखाड़ा गांव में हुआ।



**खेलेते समय पैर फिसला :** पिता जगदीश मोघा ने बताया- दोपहर करीब 3 बजे आर्यन (5) खुले बोरवेल में गिर गया। मेरी पत्नी खेत में बनी टंकी पर नहा रही थी। इस दौरान आर्यन वहां खेल रहा था। अचानक आर्यन का पैर फिसल गया और मां के सामने खुले पड़े बोरवेल में गिर गया। उन्होंने बताया- बोरवेल करीब 160 फीट गहरा है, जिसे 3 साल पहले खुदवाया गया था। हालांकि इसमें शुरुआत में ही मोटर फसने के कारण इस बोरवेल का

उपयोग नहीं किया जा रहा था। बोरवेल खुला पड़ा था। **कैमरे में 150 फीट पर दिखा बच्चे का मूवमेंट :** बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया। मंडिकल टीम बोरवेल में पाइप से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर दौसा विधायक डीसी बैरवा और कलेक्टर देवेन्द्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली।



## संक्षिप्त समाचार

### पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट में मैन्टर मेन्टी कार्यशाला संपन्न

आमेट (पुकार)। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट में देवीलाल खटीक प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में मैटल मेन्टी कार्यशाला संपन्न हुई ! पीएम श्री विद्यालय के प्रभारी अधिकारी प्रकाश चंद्र प्रजापत ने बताया कि प्रमुख वार्ताकार सोहनलाल रेगर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद, भागचंद बोरीवाल सेवानिवृत्त खनिज अभियंता एवं अविनाश जोशी पीईईओ घोसुंडी थे। वार्ताकार सोहनलाल रेगर ने पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग एवं शिक्षा के गिरेते स्तर पर रोचक वार्ताएँ प्रस्तुत की। अपनी वार्ता में पर्यावरण में गैसों की उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण हेतु उठाये जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की। वार्ताकार अविनाश जोशी ने बालिका शिक्षा एवं नशा मुक्ति पर वार्ता दी। भागचंद बोरीवाल ने ठोस कचरा निस्तारण एवं प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने पर विशेष वार्ता दी है।

विद्यालय के जगदीश चंद्र शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, संपत लाल खटीक प्राध्यापक ने अतिथियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में देवीलाल खटीक प्रधानाचार्य पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतिविधियों की विस्तृत चर्चा करते हुए सभी कार्यक्रमों में बच्चों को उत्साहपूर्ण भाग लेने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा जीनगर प्राध्यापक, नवल सिंह भेरुलाल जीनगर, राम अवतार सेनी.रैकन मेवाड़ा,कुलदीप सिंह.सर्वेश्वर सालवी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी अधिकारी प्रकाश चंद्र प्रजापत ने किया।

### विद्यालयों में पहुंची नि:शुल्क साइकिलें, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की रवानगी

**फतहनगर।** राज्य सरकार की नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत मावली ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ब्लॉक नोडल मावली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सोमवार को साइकिलें देने की शुरुआत की गयी। मावली मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार सुथार ने प्रथम दिवस साइकिलों की रवानगी की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती कैलाश मेघवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पंकज कुमार जोशी, वितरण प्रभारी शिवशंकर आमेटा, रामरतन कोठारी, शंकरलाल चावड़ा, संजय कुमार गहलोत, पंखीलाल सहित विभिन्न पीईईओ विद्यालयों से साइकिलें प्राप्त करने आए शिक्षक मौजूद थे। विद्यालय के द्वितीय पर्सनर से आज 19 पीईईओ एवं यूसीईईओ के प्रतिनिधियों को 500 से भी अधिक साइकिलें प्रदान की गयी। मंगलवार को भी तय कार्यक्रमानुसार विजनवास, नांदवेल, खेमली, सांगवा, वारणी, पलाना कर्ला, मिन्दू, महुड़ा, पलाना खुर्द, धुणीमाता, गुडली, मेड़ता, डबोक, नामरी, तुलसीदास की सराय, थामला, घासा, धोलीमंगरी व वीरधोलिया पीईईओ विद्यालयों को साइकिलें प्रदान की जाएगी। इस बार साइकिलों का रंग फिर बदला गया है। गत वर्ष मिली साइकिलें ब्लैक थी जबकि इस बार की साइकिलें भगवा रंग की है।

### पालिका के संविदा कार्मिकों की हड़ताल समाप्त, उपाध्यक्ष से मिला आश्वासन

**फतहनगर (पुकार)।** बकाया वेतन एवं टेंडर प्रक्रिया को नियमित करने की मांग को लेकर पालिका के संविदा कार्मिकों की पिछले सात दिनों से चल रही हड़ताल सोमवार को पालिका उपाध्यक्ष नीतिन सेठिया से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गयी।

सोमवार शाम चार सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ पालिका उपाध्यक्ष ने वार्ता की तथा इन कार्मिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मण्डल ने वार्ता की हजनाकरी धरने में शामिल सभी कार्मिकों को दी। सभी की सहमति के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गयी।

उल्लेखनीय है कि करीब तीन दर्जन संविदाकर्मी धरने पर बैठे थे जिनमें सफाई, फायर, एम्बुलेंस एवं कार्यालय में काम करने वाले कार्मिक भी शामिल थे। उक्त सभी व्यवस्थाएँ हड़ताल के चलते बेपटरी हो गयी थी तथा आम आदमी को इससे खासी परेशानी भी हुई। ये कार्मिक अपनी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को भी ज्ञापन के जरिए अवगत करा चुके थे।

### एड्स जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह

**आकोला (पुकार)।** रेड रिबन क्लब एवं एन.एस.एस. के संयुक्त तत्वावधान में एड्स सप्ताह के तहत आयोजित पोस्टर मेकिंग, स्लोगन, फेस मेकिंग, रंगोली एवं निबन्ध प्रतियोगिता के विजेताओं के पुस्करकार वितरण के साथ सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। आरआरसी प्रभारी एच एल अहीर ने बताया कि नेशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी नई दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत चलाने वाली शिक्षा विभाग में एड्स व रक्तदान के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर स्कूल व कॉलेजों में रेड रिबन क्लब का संचालन करती है। आर एन टी कॉलेज ने रेड रिबन क्लब के द्वारा एड्स जागरूकता पर इन्टर कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को अकादमिक निदेशक शिवनारायण शर्मा, पीजी प्राचार्य प्रो. एस. एन.ए. जापरी, कृषि प्राचार्य प्रो. ए.ए. के. दशोरा एवं मुख्य जिला शिक्षाधिकारी कृष्णा चाछा, बी.एड. प्राचार्य डॉ. निशा अग्रवाल, हिन्दी साहित्यकार डॉ. राम सिंह चुण्डावत, एवं उपाचार्य डॉ. ओ. पी. सुखवाल ने प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर पुरूस्कृत किया।

### प्रोफेसर शर्मा यूनेस्को महात्मा गांधी संस्थान के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित

**उदयपुर (पुकार)।** पैसिफिक विश्वविद्यालय समूह के आयोजना व नियंत्रण अध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा यूनेस्को संचालित महात्मा गांधी शान्ति व स्थाई विकास संस्थान के आगामी दो वर्ष हेतु पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। एशिया - प्रशान्त क्षेत्र के देशों के कार्यरत इस 'अ' श्रेणी के संस्थान के गवर्निंग बोर्ड की बैठक में अमेरिका, जापान, फ्रांस, इण्डोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका भूटान आदि देशों से आये प्रतिनिधियों ने पर्व सम्मति से प्रोफेसर शर्मा का 2025 - 2026 पुनर्निर्वाचन किया है।

दिसम्बर 5 व 6 को सम्पन्न गवर्निंग बोर्ड की बैठक में आगामी वर्ष की कार्य योजना व बजट अनुमोदन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर शर्मा में संस्थान के आगामी वर्ष की योजनाओं को अंतिम रूप देकर सभी पदाधिकारियों में कार्य आवंटन व यूनेस्को मुख्यालय से बेहतर समन्वय पर बतल दिया। संस्थान सम्पूर्ण एशिया प्रशान्त क्षेत्र के देशों में दयालुता, जैव विविधता वैश्विक नागरिकता एवं धारणक्षम विकास के विषयों पर शिक्षण व अनुसन्धान करता है। विगत वर्ष में इस क्षेत्र में 2, 30, 000 शिक्षार्थियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया है।

### कानपुर आयुर्वेद औषधालय में नि:शुल्क चल चिकित्सा शिविर का आयोजन

**उदयपुर (पुकार)।** मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के शालाक्य तंत्र विभाग और राज्यवैद्य प्रेम शंकर आयुर्वेद महाविद्यालीय चिकित्सालय, के द्वारा प्राचार्य प्रो. महेश दीक्षित, चिकित्सालय प्रभारी प्रो. हरिमोहन मीणा एवं प्रोफेसर गुलाब चन्द बैरबा के मार्ग निर्देशन में शनिवार दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कानपुर में नि:शुल्क चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी एसोसिएट प्रोफेसर शोभन शर्मा ने बताया कि शिविर का प्रारम्भ भगवान् धन्वंतरि की पूजा अर्चना करके किया गया। शिविर में कानपुर ग्राम एवं आस पास रहने वाले लोगों के पुराना नजला, शिरः शूल, खांसी जुकाम आदि अन्य बीमारियों से पीडित कुल 87 रोगियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, काढा वितरण, औषधि वितरण एवं मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु परामर्श दिया गया।

साथ ही शिविर में आने वाले प्रत्येक रोगी का बीपी, शुगर, वजन, प्रकृति परीक्षण आदि भी किया गया। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर विष्णु कुमार मित्तल ने बताया कि शिविर का निरिक्षण आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ राजीव भट्ट ने किया और शिविर में रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं का सहराणा की। शिविर में आयुर्वेद महाविद्यालय के शालाक्य तंत्र विभाग के प्रमुख डॉ गुलाब चन्द बैरबा, एसोसिएट प्रोफेसर शोभन शर्मा, कानपुर आयुर्वेद औषधालय की प्रभारी डॉ रचना मित्तल, पीजी शोध अध्येता डॉ मोनिका, डॉ रिमश, डॉ विक्रम, डॉ अनुसुषुधा, डॉ अरविन्द, डॉ कोमल, डॉ ममता आदि ने अपनी सेवायें प्रदान की।

उदयपुर मंगलवार दिनांक 10 दिसम्बर 2024

# सुविवि- जनजाति विकास और संचार माध्यम विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी जनजाति समाज में सामाजिक सुरक्षा को लेकर बनी कई प्रथाएं कालांतर में बनी कुरीतियां, मीडिया को करना होगा जागरूक

**उदयपुर (पुकार)।** मोहनलाल खुवाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से रूसा 2.0 के सहयोग से सोमवार को ‘जनजाति विकास और संचार माध्यम ’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- रूसा 2.0 के तहत सामाजिक विज्ञान एवम मानविकी महाविद्यालय के जे.एस. महाजनि सेमिनार हॉल में सोमवार को आयोजित संगोष्ठी जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, उनकी समस्याओं और समाधान में संचार माध्यमों की भूमिका पर केंद्रित थी। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ।

उद्घाटन उद्बोधन में कुलपति प्रो.

मिश्रा ने कहा कि ‘संचार, जनजातीय समाज की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाता है। आधुनिक तकनीक और परंपरागत संचार माध्यमों के सही

# तीन साल से मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण के अटके मानदेय को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

पंचायतीराज विभाग द्वारा किया। सरकार द्वाा राजीविका समूह

सामाजिक अंकेक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा 3 साल का मानदेय का भुगतान करवाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मावली को ज्ञापन दिया गया।

बीआरपी एवं वीआरपी संघ मावली के अध्यक्ष डॉ ललित नारायण आमेटा के नेतृत्व में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता अनुभाग जयपुर के मागशंन में मावली ब्लॉक बीआरपी एवं वीआरपी द्वारा मनरेगा एक्ट की पालना सामाजिक अंकेक्षण कार्य समय पर

# स्वामित्व योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए कमेटी गठित

**उदयपुर (पुकार)।** जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने एक आदेश जारी कर स्वामित्व योजनान्तर्गत जिला स्तर पर योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन किये जाने हेतु जिला निगरानी एवं समीक्षा समिति का गठन किया है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता के गठित इस समिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उप महानिरीक्षक पंजीवन एवं मुद्रांक, भू-पर्वध अधिकारी, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सदस्य होंगे जबकि सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर होंगे। वहीं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। जिला निगरानी एवं समीक्षा समिति जिला स्तर पर समग्र कार्यक्रम की देख-रेख और

निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और जिले में योजना के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। योजना की प्रगति व समीक्षा हेतु समिति की बैठक हर महिने में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समिति का राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा। समिति का कार्यकाल मार्च-2025 तक रहेगा और आवश्यकतानुसार समिति काकार्यकाल निधारित पुस्करानुसार बढ़वाया जा सकेगा।

**बैठक 20 को :** स्वामित्व योजनान्तर्गत जिला निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में 20 दिसंबर को प्रातः 11.30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला परिषद के सीईओ हेमन्द्र नागर ने दी।

# जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रशिक्षण का आयोजन

**उदयपुर।** जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की घटनाओं का शत् प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने, पहचान पोर्टल की कार्य प्रणाली एवं नवीन प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में पंचायत समिति गिर्वा के सभागार में आयोजित किया गया।

जिला रजिस्ट्रार ने प्रशिक्षण में बताया गया की जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य है। सहायक निदेशक डॉ. पीयूष भंडारी एवं मास्टर ट्रेनर्स मेघराज पटेल ने जन्म मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन के संगठन प्रावधानों एवं अधिनियमानुसार जन्म मृत्यु की सम्पन्न घटनाओं का पंजीयन निर्धारित अवधि में कर आवश्यक को 7 दिवस में प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु एमसीसीडी कोड प्रपन संख्या 4 एवं 4ए शत प्रतिशत उपलब्ध करवाने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में ब्लॉक गिर्वा के निदेशक रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी दीपा डामोर, राजेन्द्र मीणा आदि उपस्थित थे।

# ‘टेला त्यवसाइयो पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई गैर कानूनी’

**उदयपुर (पुकार)।** टेला फुटपाथ व्यवसायी पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत उदयपुर शहर में व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे में उनके विरुद्ध अतिक्रमण के नाम पर बेदखल करने और टेला सामान जप्त कर 6000 रुपये से 10000 रुपये तक जुर्माना वसूल कर टेला सामान छेड़ने की कार्रवाई कर कानूनी होकर अवैध है।

यह विचार टेला व्यवसायी मजदूर यूनियन के संरक्षक एवं वरिष्ठ एडवोकेट पूर्व पापंद राजेश सिंघवी ने टेला व्यवसायी मजदूर यूनियन की शिराली भवन में हुई बैठक में व्यक्त रखे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम, प्रशासन एवं पुलिस अतिक्रमण के नाम पर मात्र टेला फुटपाथ व्यवसायी एवं छोटे दुकानदारों पर ही कार्रवाई कर शहर में आतंक के सन्देश को तानाशाही का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि

पथ विक्रेता अधिनियम लागू होने से नगर निगम, प्रशासन और पुलिस को टेला फुटपाथ व्यवसायी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि टेला फुटपाथ व्यवसायी के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार मात्र टाउन वेंडिंग कमेटी को है लेकिन उसे दरकिनार कर रखा है।

बैठक में यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक गुमान सिंह राव ने कहा कि नगर निगम उन टेला फुटपाथ व्यवसायी के खिलाफ भी कार्यवाही कर रही है जिन्हें उन्होंने लाइसेंस दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि टेला फुटपाथ व्यवसायी को शहर की जनता की सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है ऐसे में यूनियन टेला फुटपाथ व्यवसायी के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए आर पार का संघर्ष

स्वरूप बदलने से वह विकृत हो गई है। इसके उन्मूलन के लिए मीडिया को जनजागरण अभियान चलाना चाहिए। जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए संचार को सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही उन परंपराओं की तात्कालिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि आदर्स कॉलेज की एसोसिएट डीन प्रो. दिविजय भटनगर ने कहा कि जनजाति समाज अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है लेकिन भौगोलिक सीमाओं और तात्कालिक परिवर्तनों से कई बदलाव आए हैं। जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रारंभ में संगोष्ठी के संयोजक एवं पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. कुंजन आचार्य ने अतिथियों का स्वागत कर विषय से अवागत कराते

हुए कहा कि कहा कि यह संगोष्ठी जनजातीय समाज और संचार माध्यमों और परंपराओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान करेगी। विषय प्रवर्तन करते हुए बीबीसी हिंदी के संवाददाता मोहर सिंह मीणा ने कहा कि जनजाति समाज की समस्याओं को मीडिया तक लाने के लिए जनजाति समाज के युवा को आगे आना होगा और उन्हें मीडिया क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने होगी।

आदर्स कॉलेज की एसोसिएट डीन प्रो. दिविजय भटनगर ने कहा कि जनजाति समाज अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है लेकिन भौगोलिक सीमाओं और तात्कालिक परिवर्तनों से कई बदलाव आए हैं। जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रारंभ में संगोष्ठी के संयोजक एवं पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. कुंजन आचार्य ने अतिथियों का स्वागत कर विषय से अवागत कराते

**उदयपुर (पुकार)।** लेकसिटी के युवा रोहित कोठारी को ग्लोबल एक्सिलेंस आइकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। रोहित कोठारी ने एक बार फिर उदयपुर का मान बढ़ाया है उन्हे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ओम क्रीम प्रोडक्शन एवं यश गुप्ता द्वारा आयोजित ग्लोबल एक्सिलेंस आइकॉन अवॉर्ड सीजन। में युवा रोहित कोठारी को यूवा इंटरप्रेन्योर एवं एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट से सम्मानित किया जाएगा।

यह अवॉर्ड शो दिल्ली में आगामी आने वाले दिनों में आयोजित किया जाएगा।

शो के डायरेक्टर यश गुप्ता ने बताया कि इस अवार्ड शो में 50 हस्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस शो के लिए पूरे देश

जिला बाल संरक्षण इकाई की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर्सनर स्थित मिनी सभागार में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में एडीएम सिटी वार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में चर्चा करते हुए एडीएम वार सिंह ने कहा कि बच्चों में नशाखोरी रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे, इसके लिए विद्यालयों के आसपास विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत से हमारी भावी पीढ़ी

## राजकीय अनुज्ञाकारी शराब ठेकेदारों की बैठक सम्पन्न राजस्थान शराब ठेकेदार यूनियन ने भरी हुंकार, सरकारी शोषण नहीं सहेंगे

**संरक्षक सुंदरलाल सुवालका, जिलाध्यक्ष भारत सुवालका ईरास, महासचिव कैलाश खटीक मांडल मजोनि**

**भीलवाड़ा (पुकार)।** राजस्थान शराब ठेकेदार यूनियन (रंज.) के प्रदेशाध्यक्ष पंकज धनखड की अध्यक्षता में भीलवाड़ा जिले के राजकीय अनुज्ञाकारी शराब ठेकेदारों की बैठक सुवालका छत्रावास आजाद नगर में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष पंकज धनखड़ ने सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब ठेकेदारों से मिल रहा है, ऐसे उसके बावजूद अनावश्यक पैनन्टी लगाकर ठेकेदारों का आर्थिक शोषण

करेगी। बैठक में सौटू के वरिष्ठ नेता हीरालाल सालवी ने कहा कि शहर में पार्किंग नहीं होने से वाहनों के रोड पर खड़े रहने से यातायात की समस्या है लेकिन नगर निगम, प्रशासन और पुलिस बीमारी कुछ और है और उसका इलाज कुछ और कर रहा है।

बैठक में यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद निजाम ने कहा कि नगर निगम को कई बार कानून के बारे में अवगत कराने उसने अवैध रूप कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया लेकिन उनके बर्ताव में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने नो वेंडिंग जोन तो घोषित कर रखे हैं लेकिन उदयपुर शहर में एक भी जगह वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया है, ऐसे में बेदखल किए जाने वाले टेला व्यवसायी कहां पर अपना व्यवसाय कर सकेगे। यूनियन की उपाध्यक्ष मोहिनी माली ने कहा कि नगर निगम

विजय प्रकाश विप्लवी आदि ने जनजातियों से जुड़ी शोध सामग्री प्रस्तुत की किया।

बार में इन पर चर्चा भी हुई। सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विपिन गांधी ने किया। संगोष्ठी के दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ टीवी पत्रकार डॉ. रवि शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज की खबरों को कवर करते समय स्वयं का ध्यान रखते हुए उनकी परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम संचालन किंजल तिवारी ने किया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली की प्रख्यात टीवी पत्रकार मीनाक्षी श्योान ने कहा कि जनजाति समाज को मुख्यधारा में आने के लिए शिक्षा से जुड़ना होगा और स्वयं भी जागरूकता संबंधी अभिने प्रयास बढ़ाने होंगे इ इस मौके पर डा खुशपाल गर्ग, डॉक्टर पुकेरा मीणा, डॉ. भारत भूषण, डॉ. कल्पना आचार्य, डा विद्या मेनारिया, नेहा कुमार, युगलकिशोर, डिम्पल सुहलका, डा कमल शर्मा,

प्रतिभागियों ने कहा कि ‘जनजातीय समुदायों के विकास’ में योगदान देने की दिशा में संगोष्ठी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अंत में डॉ कुंजन आचार्य ने सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया।

# रोहित कोठारी को ग्लोबल एक्सिलेंस आईकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा



से रोहित कोठारी का चयन किया गया। रोहित कोठारी को यह अवार्ड अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। रोहित कोठारी को यह अवार्ड उनके द्वारा कई कलाकारों को डिजिटल मीडिया एवं प्रेस द्वारा प्रमोट करने के लिए दिया जायेगा।

रोहित कोठारी द्वारा कई बड़े लोगों को न्यूज चैनल, न्यूजपेपर, आर्टिकल द्वारा मोका दिया। रोहित कोठारी द्वारा सेलिब्रिटी एव कलाकारों की न्यूज सबसे पहले न्यूजपेपर और इंडिया के लीडिंग प्लेटफार्म पे दी जाती है। उनके द्वारा सेलिब्रिटी कंटेंट न्यूज को काफी प्रमोट किया जाता है। रोहित कोठारी ने डिजिटल में अपना बहुत नाम कमाया है।

# जिला बाल संरक्षण इकाई की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक बच्चों में नशाखोरी रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाएं

गए। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानव तस्करी विरोधी यूनिट हिरोश मेहता, राजकीय शिक्षा गृह अधीक्षक पंकज पचार, संरक्षण अधिकारी बाल अधिकारिता विभाग राजकुमार जीनगर, बाल कल्याण समिति की यशोदा पणिग्या, अंजना जोशी, संगीता राव एवं अंकुर टांक, काइल्ड हेल्पलाइन उदयपुर के समन्वयक नवनीत औदीव्य, आरोग्य सेवा संस्थान के नरपत सिंह सहित विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।

विवाह, बाल भिक्षावृति, बाल तस्करी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही, राजकीय / गैर राजकीय गृह के संचालन आदि के संबंध में चर्चा हुई तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए

### विधिक सेवा सहायता और अधिकारों के बारे में दी जानकारी

**भीलवाड़ा (पुकार)।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के तत्वाधान में आरम्भ सेवा संस्थान, नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र बिलिया खुर्द, भीलवाड़ा में विधिक सेवा सहायता एवं योजनाओं और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष विशाल खण्डेलवाल ने बताया की आरंभ सेवा संस्थान नशामुक्ति के लिए प्रयासरत है व समय समय पर ऐसी योजनाओं और अवसरों के बारे में भी अवगत कराते है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग, भीलवाड़ा से फारूक खान पटान, फिरोज खान एवं सुनीता व आरंभ सेवा संस्थान के स्टाफ सुमित शर्मा, हर्षवर्धन सिंह, कुलदीप सिंह, अब्दुल पटान आदि मौजूद रहे।

# संथारापूर्वक देह त्यागने वाले समाज सेवी की पार्थिव देह का किया दान



**समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया अनुकरणीय उदाहरण**

**उदयपुर (पुकार)।** संघनिष्ठ, सेवाभावी, समाजसेवी चिकित्सा जगत से जुड़े शहर के पोरवाल समाज के वरिष्ठ भगवन्तलाल तोतावत ने तीन माह की बीमारी से संघर्ष करते 8 दिसंबर को संथारापूर्वक शरीर त्याग दिया। उनके सुपुत्र अंकित एवं पुत्रधू डॉ प्रकृति पोरवाल (तोतावत) ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए साहसपूर्ण निर्णय लेकर उनकी पार्थिव देह को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के एंटागॉनी विभाग को दान कर दी।

उन्होंने बताया कि उनके पिता का मानना था कि मृत्यु के उपरांत भी यह शरीर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े छात्रों के अध्यन के काम आए उससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। उन्होंने कहा कि समाज में देहदान को संस्था व्यपक तौर पर जाना चाहिए जिससे जीवन के बाद भी इस शरीर का सकारात्मक उपयोग हो सके। देहदान के समय पोरवाल समाज तैरापंथ समाज गोगुंदा मित्र मंडल सहित चिकित्सा से जुड़े चिकित्सा एवं व्यवसायी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में देहदान के वक्त डॉक्टर करण तोतावत डॉ राजेंद्र साम्प डॉ सुरेंद्र साम्प, बाबूलाल जैन पूर्व पुलिस अधीक्षक कर्नल बहादुर कपूर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद साम्प, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एम.डी हॉस्पिटल के एजीव्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल, सीईओ ऋषि कपूर, डीन संगीता गुप्ता, मेडिकल सुप्रिटेण्ट डॉ हरप्रोत सिंह आदि बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे।

श्रद्धांजलि सभा में मुनि संबोध कुमार मैथिल ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए दिवंगत भगवन्ती लाल जी की सेवा और समर्पण निष्ठा की अस्मरणीय बताते हुए अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने व्यक्ति के जन्म से ही नहीं जर्म से व्यक्त होना उक्ति को चरित्राथ किया है।

## ये तेल हेल्थ के लिए हो सकता है घातक



## साइलेंट किलर है ये तेल, आज बंद करें इस्तेमाल, हार्ट और इन बीमारियों को दे रहे हैं न्योता

बाजार में कई प्रकार के तेल उपलब्ध हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए पाम के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पाम के तेल के उपयोग से कई हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है।

पाम के तेल का उपयोग स्वास्थ्य के क्यों हानिकारक होता है।

भारत में खाना बनाने के लिए कई प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है। बाजार में मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल की भूसी का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल आदि कई प्रकार का तेल मिलता है। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार, खाने में तेल का उपयोग करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खाना पकाने में कुछ तरह के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें पाम का तेल भी शामिल है। इसके इस्तेमाल से दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। चलिए आपको बताते हैं खाने बनाने के लिए पाम के तेल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए?

पाम तेल को कोमत अन्य तेलों की कोमतों की तुलना में बहुत कम है। इससे इसका उपयोग काफी बढ़ गया है, लेकिन कई अध्ययन से पता चलता है कि इसके हानिकारक दुष्प्रभाव हैं। रिसर्च के मुताबिक, जो लोग इस तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

हृदय पर दबाव  
पाम तेल में हाई मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जो शरीर में घुलनशील नहीं होता है। ये वसा कोशिकाएं हृदय से रक्त की

आपूर्ति करने वाली धमनियों में जमा हो जाती हैं और अवरुद्ध हो जाती हैं। जिसके चलते खराब रक्त परिसंचरण हृदय पर दबाव डालता है और दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि का खतरा बढ़ जाता है।

शुगर और वजन बढ़ने का खतरा

ताड़ का तेल खाने से शरीर में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल), खराब वसा का स्तर बढ़ जाता है। जैसे-जैसे एलडीएल का स्तर बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। नियमित रूप से ताड़ के तेल यानी पाम के तेल से बने खाद्य पदार्थ खाने से वजन बढ़ने और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है।

पाम तेल को परिष्कृत यानी रिफाईंड कर बाजार में उतारा जा रहा है। रिफाईंड और डबल रिफाईंड तेल बनाते समय 6 से 13 प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से तेल के प्राकृतिक गुण जैसे प्रोटीन और स्वस्थ वसा नष्ट हो जाते हैं। जिसके चलते तेल पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है। अध्ययनों के मुताबिक, ऐसे रिफाईंड तेलों का उपयोग करने वालों में हृदय अवरुद्ध और हृदय रोगों की घटनाएं बढ़ रही हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खाना पकाने में कुछ तरह के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें पाम का तेल भी शामिल है। इसके इस्तेमाल से दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक बढ़ जाता है।

## अब चुटकियों में हो सकता है शुगर कंट्रोल, अब रोज इस चीज का करना होगा सेवन

खीरा शुगर कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छे करने में मदद करता है। खीरा आंखों की रोशनी बढ़ाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

खराब खानपान और बिगड़ते

लाइफस्टाइल के कारण शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन एक बार जब शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपने खानपान को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं शुगर कंट्रोल करने के साथ ही खीरा खाने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा किया जा सकता है।

पानी की कमी होगी दूर

मधुमेह से पीड़ित लोग अक्सर मूत्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। बार-बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या से बचने के लिए नियमित



शुगर कंट्रोल करने के लिए खीरा का सेवन करना चाहिए।

रूप से खीरे का सेवन करना चाहिए। सिर्फ एक आंवला शरीर से निचोड़ देगा सारा कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करें इस्तेमाल, जानिए रक्त के अचूक फायदे वजन कंट्रोल

वजन बढ़ने के कारण रक्त शर्करा यानी शुगर का स्तर आमतौर पर अधिक होता है, लेकिन खीरा खाने से मोटापे से बचाव होता है। वजन नियंत्रित रखता है। अगर शरीर में मोटापा बढ़ जाए, तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। इसलिए कीराडोसा यानी खीरे मोटापे को खतरे को कम करता है। जिससे ब्लड शुगर भी नियंत्रण में रहता है।

शरीर को मिलेगी ऊर्जा

खीरे में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। खीरे में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में सहायता करता है। भोजन को पचता है और पेट की समस्याओं से बचाता है।

बस रोज एक मुट्ठी खा लें अंकुरित मेथी, दिल से दिमाग तक हर बीमारी का मिट जाएगा नाभोनिशा।

## इस फल का बीज कोलेस्ट्रॉल समेत इन 5 बीमारियों के लिए है चमत्कारी

अक्सर एवोकाडो के बीज को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन ये बीज स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। एवोकाडो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद है। एवोकाडो में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। एवोकाडो के बीज का सेवन हार्ट, पाचन, वजन कम करने समेत सूजन और दर्द में बहुत ही लाभकारी होते हैं। एवोकाडो के बीज के फायदे

एवोकाडो के बीज विटामिन ए, सी और ई के साथ-साथ कैरोटीनॉयड जैसे बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन और जेक्सैथिन भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की यह प्रचुरता कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक होती है।

हृदय स्वास्थ्य में सुधार

एवोकाडो के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है।

## सहत के लिए चमत्कारी फल



सिर्फ एक आंवला शरीर से निचोड़ देगा सारा कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करें इस्तेमाल, जानिए रक्त के अचूक फायदे

पाचन में मददगार  
बीज में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह कब्ज, गैस और अपच

जैसी समस्याओं को कम करता है। इसके साथ ही यह आंतों को साफ रखता है।

वजन घटाने में सहायक  
एवोकाडो के बीज में मौजूद फाइबर लंबे समय तक भूख को रोकता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। यह मेटाबॉलिज्म

को बढ़ाता है और शरीर में फैट को कम करता है। सेहत का पावरफूड है ये 1 फल, सर्दियों में खाता होगा इन 3 बीमारियों का, बस रोज इस तरह करें सेवन

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बीज में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह त्वचा को जवां बनाए रखने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करता है।

सूजन और दर्द में राहत  
एवोकाडो के बीज में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक हैं।

एवोकाडो के बीज का कैसे करें उपयोग?

बीज को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे स्मूदी, चाय, या सूप में मिलाकर सेवन करें। बीज का तेल त्वचा और बालों की देखभाल के लिए उपयोगी है। इसके अलावा खीरे के बीज ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी हड्डियों की बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं।

## बढ़ती उम्र को थाम लेंगे ये फूड, 50 साल के बाद भी दिखेंगे जवान

हेल्थलाइन के मुताबिक डाइट में प्रोटीन के हेल्दी सॉर्स, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर फूड का सेवन करने से आपकी बाँडी उम्र बढ़ने पर भी जवान दिखेंगी।

उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। इंसान पैदा होता है और धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है और एक उम्र के बाद बूढ़ा भी दिखने लगता है। जीवन के इस नेचुरल प्रोसेस में लोगों को जवानी का फेस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लोग चाहते हैं कि वो सालो साल ऐसे ही जवान दिखें। उन्हें चेहरे पर झुर्रियाँ और सफेद बाल दिखना बिल्कुल पसंद नहीं। 50 साल के बाद हमारी बाँडी फिजिकली बूढ़ी होने लगती है जो नेचुरल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। कम उम्र में उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन बूढ़ी दिखने लगती है और बाल सफेद होने लगते हैं।

मेडिकल साइंस के मुताबिक जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन कमजोर होने लगता है जिससे हमारी स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप इस ऐजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं। बढ़ती उम्र को रोकने के लिए आपके पास कुदरत ने बेहतरीन फार्मूला भेज रखा है जिसे समझने की और अपनाने की आपको जरूरत है।

हमारी डाइट हमारी फिटनेस, हमारे



हमेशा जवान रहने की डाइट

काम करने की क्षमता, हमारे रूप-रंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बीमारियों के जोखिम को प्रभावित करती है। जिस तरह खराब डाइट हमारी बाँडी को बूढ़ा बनाती है उसी तरह हेल्दी फूड हमारी बाँडी को लम्बी उम्र तक जवान रखते हैं। हेल्थलाइन के मुताबिक कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके ऐजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और आपके बुढ़ापा को छुपा सकते हैं। कुछ फूड्स का सेवन करने से आपकी स्किन जवान रह सकती है और आप लम्बी उम्र

तक युवा दिख सकते हैं। बाप रे बाप, जल्दी बूढ़ा बनाने का कारखाना है इन फूड में, जवान बने रहना है तो तुरंत करें डाइट से आउट, करना बुढ़ापा नजदीकडाइट में प्रोटीन के हेल्दी सॉर्स, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर फूड का सेवन करने से आपकी बाँडी उम्र बढ़ने पर भी जवान दिखेंगी। ये हेल्दी और स्किन को भरपूर पोषण मिलता है। ओमेगा 3 एसिड से भरपूर मछलियों में आप सैल्मन और ट्यूना का सेवन करें। मछली में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड

फूड हैं जो बुढ़ापा को धीमा करते हैं और आपको जवान बनाते हैं।

मछली का करें सेवन  
स्किन को जवान रखने के लिए और बाँडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फैट से भरपूर मछली का सेवन करें। हेल्दी फैट का सेवन करने से स्किन मॉइस्चराइज रहती है और स्किन को भरपूर पोषण मिलता है। ओमेगा 3 एसिड से भरपूर मछलियों में आप सैल्मन और ट्यूना का सेवन करें। मछली में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड

## सिर्फ इन 4 विटामिन को डाइट में शामिल कर लें तो दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे, मिलेगी भरपूर ताकत

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ विमल झांझर ने बताया कि दिल की सेहत के लिए 4 विटामिन का सेवन करना बेहद जरूरी है। हमारी बाँडी को जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जरूरत होती है वैसे ही विटामिन की भी जरूरत होती है।

विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो धमनियों में प्लाक जमने से बचाता है और दिल की हेल्थ को दुरुस्त करता है।

दिल को हेल्दी रखना है तो दिल का ख्याल दिल से रखें। दिल को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करें। लाइफस्टाइल में बदलाव करें और तनाव से दूर रहें। दिल की सेहत के लिए आप स्मोकिंग से दूर रहें। नशीले पदार्थों का सेवन आपके दिल को कमजोर कर देता है। दिल की सेहत को दुरुस्त करने के लिए कुछ विटामिन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये विटामिन और पोषक तत्व दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और दिल के रोगों से भी बचाव करते हैं।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ विमल झांझर ने बताया कि दिल की सेहत के लिए 4 विटामिन का सेवन करना बेहद जरूरी है। हमारी बाँडी को जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जरूरत होती है वैसे ही विटामिन की भी जरूरत होती है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो दिल को फायदा पहुंचाते हैं और हार्ट की ब्लॉकेज को कंट्रोल करते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि दिल की सेहत को दुरुस्त करने के लिए कौन से चार विटामिन का सेवन करना जरूरी है।

विटामिन ए दिल की है खुराक  
विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो धमनियों में प्लाक जमने से बचाता है और दिल की हेल्थ को दुरुस्त करता है। ये विटामिन ब्लड वैसल्स की दीवारों को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है जो हमारी आर्टियल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। अगर ब्लड में पर्याप्त विटामिन सी रहे तो दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत कम रहता है।

विटामिन सी कहाँ से मिलेगा  
खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, कीवी, अमरूद, आंवला, टमाटर और शिमला मिर्च का सेवन करने से बाँडी को विटामिन सी मिलता है।

विटामिन च भी है हार्ट की दवा  
विटामिन के दो तरह का होता है एक विटामिन च 1



दिल की खुर्चा  
विटार्

और दूसरा च 2। विटामिन च 1 ब्लड में क्लॉटिंग करता है जबकि च 2 हमारी आर्टिरीज से कैल्शियम को हटाने का काम करता है। विटामिन च ब्लड के थक्के जमने में मदद करता है और धमनियों में कैल्शियम के जमाव को रोकता है। डाइट में इसका सेवन करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम कम होता है।

विटामिन च कहाँ से मिलता है  
हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, केल, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, सोयाबीन, कीवी, मटर और हरी बीन्स में मिलता है।

विटामिन डी भी दिल के लिए है जरूरी  
विटामिन ए का सेवन भी दिल के लिए जरूरी है। बाँडी में विटामिन डी की कमी होने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है। बाँडी को हेल्दी रखने वाला ये विटामिन दिल की भी दवा है। यह दिल की मांसपेशियों और ब्लड फलो को सही बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करता है।

बाँडी को विटामिन डी कहाँ से मिलता है  
सूरज की रोशनी, वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, टूना,

अंडे की जर्दी, दूध और अनाज का सेवन करके बाँडी में इस विटामिन की कमी की भरपाई की जा सकती है।

विटामिन बी 3 कैसे दिल को हेल्दी रखता है  
विटामिन डी जिसे नियासिन भी कहा जाता है। ये विटामिन दिल की सेहत को दुरुस्त करने में मदद करता है। ये विटामिन बाँडी में एनर्जी को पैदा करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की सेहत बिगाड़ सकती है इसलिए इसे कंट्रोल करना जरूरी है।

ये विटामिन सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। धमनियों को हेल्दी रखने में ये विटामिन जरूरी है। इसका सेवन करने से ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल रहता है।

इसकी कमी कहाँ से पूरा करें  
विटामिन बी 3 की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में मांस, मछली, चिकन, टर्की, सैल्मन, टूना, नट्स और बीज जैसे मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद, साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, जई, मशरूम, शकरकंद, हरी मटर, दालें और सोयाबीन का सेवन करें।

## बस रोज चबा लें 2 लौंग, महीने भर में ताकतवर बन जाएगा शरीर

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट और हड्डियों की समस्याओं से निदान के लिए वरदान हैं।

हेल्दी और फिर रहने के लिए अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ताकि किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं हो। स्वास्थ्य के लिए लौंग के भी कई फायदे होते हैं। लौंग का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में स्वाद के लिए किया जाता है। लौंग खाने में स्वाद के साथ ही कई बीमारियों का इलाज भी करती है। बस रोज 2 लौंग चबाने से हेल्थ को कई फायदे होते हैं। लौंग को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट और हड्डियों की समस्याओं से निदान के लिए वरदान हैं।

लौंग में आयरन, फाइबर, विटामिन, सोडियम, मैंगनीज, पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती हैं। लौंग के सेवन से शरीर में इंफेक्शन होने



का खतरा भी नहीं रहता है। आइए आपको बताते हैं लौंग के फायदे क्या होते हैं। इसके सेवन स्वास्थ्य को क्या-क्या लाभ होते हैं।

पेट दर्द में लौंग का तेल गर्म पानी के साथ लें।

हड्डियों की समस्याओं के लिए, इसे भोजन में शामिल करें।

लौंग का नियमित सेवन पेट और हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करें।

इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए सूखी अदरक का पाउडर या सॉट, गर्म पानी में मिलाकर हर सुबह सेवन करने से बहुत असरदार होती है। यह पाचन से लेकर जोड़ों के दर्द से राहत देता है। यहां जानिए सॉट या सूखी अदरक का पाउडर के फायदे

पेट के लिए लौंग के फायदे  
पाचन सुधार- लौंग पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें मौजूद यौगिक गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मदद करते हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### विभिन्न ऐतिहासिक पक्षों पर पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

राजसमंद (पुकार)। जिला मुख्यालय स्थित बीएन पीजी गर्ल्स कॉलेज में इतिहास विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन का आयोजन किया गया। प्राचार्या डॉ अर्पणा शर्मा ने बताया कि छात्राओं में कौशल विकास एवं वर्तमान



स्वरूप में तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उपाचार्य डॉ इन्द्रसिंह राठौड़ ने कहा कि छात्राओं को इतिहास से रूबरू होना चाहिए। इससे छात्राओं में इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। प्रभारी डॉ ललिता राठौड़ ने बताया कि पीपीटी के माध्यम से जसा इतिहास की छात्राओं ने इतिहास का प्रारम्भ, प्राचीन राजवंश, मूल साम्राज्य का उद्धान एवं पतन, सिंधु घाटी सभ्यता से महाजनपद इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें प्रथम स्थान पर चेर्य जोशी, द्वितीय स्थान पर खुशी प्रजापत, तृतीय स्थान पर मंजु पवार रही। निर्णायक डॉ कमलेश पालीवाल, डॉ सुमना श्रीमाली थे। इस दौरान डॉ अनुसुया उपाध्याय, डॉ गजेन्द्रसिंह चारण, डॉ सुरेन्द्रसिंह चुंडावत, डॉ पंकज राठौड़ उपस्थित थे।

### ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 आज

राजसमंद (पुकार)। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 का आयोजन मंगलवार को श्रीबालकृष्ण विद्या भवन राउमावि कांकरोली में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हो रही प्रतियोगिताओं में राजसमंद ब्लॉक के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवासरत 15 से 29 आयु वर्ग के वे सभी युवा भाग ले सकते हैं, जिन्होंने अपना पंजीकरण युवा बोर्ड की वेबसाइट पर कराया है। विस्तृत जानकारी एवं निर्देश/नियम व शर्तें राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए युवा बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन करने वाले सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को श्रीबालकृष्ण विद्या भवन राउमावि कांकरोली के परिसर में मंगलवार प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना आवश्यक है। विलम्ब से आने वाले प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। ब्लॉक स्तर पर चयनित विजेता जिला स्तर पर तथा जिले में चयनित विजेता संभाग स्तर पर भाग लेगा। युवा महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों को प्रतियोगिता स्थल पर अपने आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल एवं छायाप्रति के साथ युवा बोर्ड के पोर्टल पर क्लिक एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिन्ट प्रति (हॉटकॉपी) साथ लाना आवश्यक है। ये सभी दस्तावेज नही लाने पर युवा कलाकारों को प्रतियोगिता से वंचित किया जा सकता है। युवा कलाकारों को अपने प्रदर्शन के लिए आवश्यक सामान, उपकरण, कलर, ब्रश, ड्राइंगशीट, वाद्ययंत्र इत्यादि स्वयं अपने साथ लाने होंगे।

### टीबी मुक्त भारत अभियान-2025

100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत एलटी और रेडियोग्राफर प्रशिक्षण का आयोजन

राजसमंद (पुकार)। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत (टीबी मुक्त भारत अभियान-2025) 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत सोमवार से सम्पूर्ण जिले में निक्षय वाहन के के लिए अल्ट्रा पोर्टेबल हेड हैल एक्स-रे मशीन एवं टू नाट मशीन संचालन के लिए ब्लॉक वाईज रेडियोग्राफर एवं लेब टेक्निशियन का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र में आयोजन किया गया। जिसमें जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ रामनिवास जाट ने सभी को अभियान से सम्बन्धित सभी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से पुष्पकान्त त्रिवेदी एवं नारायण लाल सेन ने सभी को अल्ट्रा पोर्टेबल हेड हैल एक्स-रे मशीन संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान एसटीएलएस तरुण रामावत मौजूद थी।

### एक अच्छा जीवन जीने को विचारों को

पॉजिटिव रखना बेहद जरूरी है : मुनि अतुल

राजसमंद (पुकार)। जिला मुख्यालय पर मुनि रविंद्र कुमार एवं मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में तनसुख कच्छरा के निवास पर रात्रिकालीन आध्यात्मिक प्रवचन हुए। मुनि अतुल कुमार ने कहा कि हमारी सोच की वजह से सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। हमारे नकारात्मक विचार न सिर्फ हमारा कॉम्प्लेक्स कम करते हैं बल्कि सेहत को भी बिगाड़ सकते हैं। इस बारे में बेहद कम लोग ही जानते होंगे कि नेगेटिव विचार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने विचारों को पॉजिटिव रखना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक नकारात्मक विचारों से घिरे रहने की वजह से हार्ट संबंधी एवं हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। नकारात्मक बनने वाली भावनाएं हैं नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या और उदासी। नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए किसी भी बात को बार-बार अपने मन में दोहराकर उसे बढ़ा चढ़ाकर न पेश करें अतीत को जाने दें क्योंकि लगातार नकारात्मक घटनाओं पर विचार करने से आपका वर्तमान छिन्न जाता है और आप बुरा महसूस करते हैं। मुनि रविंद्र कुमार ने मंगल पाठ सुनाया।

## न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण



राजसमंद (पुकार)। जिला प्राधिकरण अध्यक्ष राधेन्द्र काठवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव संतोष अग्रवाल ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर कारागृह की भोजन, सफाई, आवास, सुरक्षा इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अग्रवाल ने बताया कि निरीक्षण के समय कारागृह में कुल 126 बंदी निरुद्ध मिलें। नवीन प्रवेशित बंदियों से संवाद किया गया सभी ने अपने प्रकरण में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त होना बताया। कारागृह में कोई भी बंदी 18 साल से कम उम्र का निरुद्ध नहीं पाया गया। चिकित्सक द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना बताया। अग्रवाल ने कारागृह में सजायापता बंदियों की जानकारी प्राप्त की। बंदियों के मनोरंजन के लिए बैरक में टेलीविजन लगी हुई है तथा सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील अवस्था में हैं। बंदियों से वार्ता करने पर उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने तथा भोजन व्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त किया।

## शीत लहर में स्वेटर पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिले

राजसमंद (पुकार)। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मुंडोल के राउमावि में सोमवार को श्री चंदनबाला बालिका मंडल द्वारा विद्यालय के 70 बालक-बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए गए। संस्था की उप प्राचार्य अरुणा जैन ने बताया कि बालिका मंडल को छोटे से निवेदन पर विद्यालय के बालक-बालिकाओं को स्वेटर वितरण किया गया। संरक्षक पिस्ता पारिया ने वर्धमान स्थानकवासी चंदनबाला बालिका मंडल की कार्यप्रणाली एवं किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। प्रभारी संगीता कावड़िया ने बताया कि मंडल विभिन्न क्षेत्र में विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहा है। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रक्षा पारिया ने महवीर स्वामी की शिक्षा त्याग अहिंसा प्रेम



आदि पर कहानी के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की। संस्थान की मंत्री मनाली बोल्या एवं कार्यकारिणी सदस्य खुशी सुराणा, अंबनी श्रीश्रीमाल, लवीशा रांका ने विचार व्यक्त किए। संस्था प्रधान महेंद्रसिंह झाला ने अतिथियों का स्वागत किया तथा समय-समय पर इस तरह के

# जिलेभर में आयोजित होंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर

● सीएमएचओ ने स्वास्थ्य भवन में ली तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक

राजसमंद (पुकार)। राज्य सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले में भी 15 दिसम्बर से 31 जनवरी तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिये राज्य स्तर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी चिकित्सा अधिकारी तैयारी सुनिश्चित करें। यह निर्देश सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने जिले में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों को लेकर स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने बताया कि शिविरों में एलोपैथी के साथ ही आर्युष पद्धति के माध्यम से भी रोगों का निदान एवं उपचार किया जाएगा। आवश्यकतानुसार अतिविशिष्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों



द्वारा टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से भी नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविरों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, असक्रामक रोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन कॉमन कैन्सर एवं अंधता रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान पर ले जाकर भी उपचारित किया जाएगा। सभी शिविरों में जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र उपचार की दृष्टि से पंचायत समिति मुख्यालयों पर फोलोअप एवं जिला स्तर पर रेफरल शिविरों का

आयोजन किया जाएगा। जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाएगा। पंचायत समिति मुख्यालयों पर फोलोअप एवं जिला स्तर के रेफरल शिविरों में मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच करवाकर दिव्यांगजन को यूडीआईडी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों के सफलतापूर्वक संचालन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में

विभागीय अधिकारियों को उनकी भूमिका एवं अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में शिविर आयोजन के स्थान चयन, शिविर पूर्व की जाने वाली कार्यवाही, शिविर में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयों एवं जांच व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया तथा किसी भी समस्या के लिए जिला स्तर पर संपर्क करने के लिए निर्देशित किया गया। शिविर के लिए राज्य स्तर से निर्धारित दायित्वों के बारे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों को अवगत करवाया गया तथा शिविर स्थल पर उस सेक्टर के विभागीय कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अधिकाधिक लोगों को शिविरों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिये निर्देशित किया गया।

## दिव्यांग बालक-बालिकाओं के लिए छात्र-अभिभावक परामर्शदात्री एवं खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन

सहायक अंग उपकरण व भामाशाह ने किए स्वेटर वितरण

राजसमंद (पुकार)। जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजनगर में समावेशी शिक्षा अन्तर्गत दिव्यांग बालक-बालिकाओं के लिए छात्र-अभिभावक परामर्शदात्री एवं खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य कमलेश कहल्या ने बताया कि समग्र शिक्षा अन्तर्गत दिव्यांग बालक-बालिकाओं की क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने एवं दिव्यांग जन हितार्थ सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा घनश्याम लाल गौड़ ने दिव्यांग बालक-बालिकाओं को



जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने, निरंतर आगे बढ़ते रहने व समाज की मुख्य धारा में समायोजन के लिए प्रेरित किया। साथ ही अभिभावकों को सरकार द्वारा दिव्यांग हितार्थ उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के पराओलम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जगदीश तेली ने खेल के

माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सम्पूर्ण राजसमंद ब्लॉक से 207 दिव्यांग बालक-बालिका एवं अभिभावक उपस्थित हुए। सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी सुनिता शर्मा व कमलेश उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं अभिभावकों के लिए विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया।

## विधायक दीप्ति ने राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लिया भाग

राजसमंद (पुकार)। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सोमवार को जयपुर में आयोजित उदीयमान राजस्थान (राइजिंग राजस्थान) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यह सम्मेलन अब तक का

को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से उन्नति करने वाला राज्य बनेगा।



सबसे सफल निवेशक शिखर सम्मेलन सिद्ध हुआ है। विधायक दीप्ति ने इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार की संवेदनशील और पेशेवर कर्मियों की नैतिकता के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगले चार वर्षों में 150 खरब रुपये से बढ़कर 300 खरब रुपये के स्तर

विधायक ने कहा कि सम्मेलन की सफलता के पीछे प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मेलन आयोजन से पूर्व प्रत्येक जिले और प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों पर निवेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित करने का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिससे राज्य में निवेश का एक सकारात्मक वातावरण बना है।

## सेवानिवृत्त अपना आधार पेन से लिंक करें

राजसमंद (पुकार)। प्रदेश सहित जिले के कोषालय अथवा उपकोषालयों से जुड़े विभिन्न विभागों के 500 से भी अधिक पेंशनरों के नवंबर माह की पेंशन में भारी आयरक कटौती की गई है। राजस्थान राज्य सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के संभागाध्यक्ष प्रभु गिरि गोस्वामी ने बताया कि विभिन्न पेंशनरों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया हुआ है अथवा जिनका पैन सक्रिय नहीं है, पेंशन निदेशालय के आदेश अनुसार उनकी पेंशन में 20 प्रतिशत की दर से आयरक कटौती की गई है। इससे उनकी आर्थिक दशा काफी बिगड़ गई। विभिन्न पेंशनरों की पेंशन में 20 से 25000 रुपए तक की कटौती की गई। यह कटौती आयरक अधिनियम 1961 के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से की गई। सेवानिवृत्त महासंघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम जोशी, जिला महासंघी सत्यनारायण व्यास, मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भद्रेश आचार्य, उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, मंत्री शिवलाल खींची, संगठन महासंघी राधेश्याम शर्मा, बंशीलाल रंका आदि प्राथमिक कार्यों में जिले के सभी पेंशनरों से गुजारिश की है कि वे अभिलंब अपने आधार को पैन से लिंक करें तथा पैन को सक्रिय रखें और जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है वे अपना पैन कार्ड बनवा लें।

## राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला बैठक में संभाग अभ्यास वर्ग व प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन की तैयारी पर की चर्चा



राजसमंद (पुकार)। राजस्थान शिक्षक संघ (राजस्थान) की मासिक जिला बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष सतीश आचार्य की अध्यक्षता में राउमावि जावद में किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान संभाग उपाध्यक्ष कैलाशचंद्र सुथार एवं विभाग संगठन मंत्री तेज बहादुरसिंह, विशिष्ट अतिथि शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक राजेश त्रिपाठी, जिला संगठन मंत्री शंकर माली एवं सभाध्यक्ष ऋषिकेश गुर्जर थे। जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद

सतीश आचार्य ने संगठन गीत का सामूहिक गान किया। जिला मंत्री सुजीत कुमार त्रिपाठी, राजेंद्रसिंह चारण और वीणा वैष्णव ने सभी अतिथियों का पगड़ी और उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया। शिवदास वैरागी और घनश्याम खत्री ने सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। राजेश त्रिपाठी ने संगठन यात्रा का वर्णन करते हुए संगठन को मजबूती देने वाले सभी पुराने कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। विभाग संगठन मंत्री तेज बहादुर सिंह ने शिक्षक समस्याओं के समाधान कराने का आग्रह किया। संभाग उपाध्यक्ष कैलाशचंद्र ने संभाग अभ्यास वर्ग



की तैयारी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 27 व 28 दिसंबर को विद्या निकेतन कांकरोली में दो दिवसीय संभाग स्तरीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया जाएगा। जिसमें संभाग की सभी उप शाखाओं से दायित्ववान कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही सांवलियाजी में जनवरी में होने वाले प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन की भी जानकारी दी। जिलाध्यक्ष सतीश आचार्य ने समायोजन में हुई अनियमितता पर जिला शिक्षा अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से संपर्क करने और शिक्षक हित में उचित समाधान का विश्वास दिलाया। आधार व संचालन

जिला मंत्री सुजीत त्रिपाठी ने कहा। इस दौरान रेलमारा उष शाखा अध्यक्ष मुकेश सुथार, नाथद्वारा अध्यक्ष किरण माली, मंत्री श्याम सुंदर झंवर, खमनोर अध्यक्ष रणवीर सिंह, देलवाड़ा सभाध्यक्ष केसरसिंह राठौड़, प्रेम सिंह राणावत, कुंवारियां अध्यक्ष गणेश कुमावत, विनोद आचार्य, आमेठ अध्यक्ष हरिओम सिंह चुंडावत, चारभुजा अध्यक्ष बसंत पालीवाल, कोषाध्यक्ष कथल पुरी गोस्वामी, कुंभलगढ़ अध्यक्ष रंजाल मीणा, मंत्री दयाराम मीणा, जिला सभाध्यक्ष शिवदास बैरागी, कोषाध्यक्ष घनश्याम खत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

# राजस्थान साहित्यकार परिषद् की मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन

राजसमंद (पुकार)। राजस्थान साहित्यकार परिषद् कांकरोली के तत्वावधान में मासिक काव्य गोष्ठी परिषद् के अध्यक्ष त्रिलोकी मोहन पुरोहित अध्यक्षता में आयोजित की गई। देखो, दिन में भी अब तारे चमकने लगे हैं कि भूखे पेट भी भोजन होने लगे हैं.. पंक्तियों के साथ गोष्ठी के सूत्रधार किशन कबीरा ने गोष्ठी का आह्वान किया। वयोवृद्ध साहित्यकार ईश्वरचंद्र शर्मा ने इन पंक्तियों के साथ कविता मन का द्रढ़ सुनाई-बुढ़ापे में भी बच्चा बनकर रहता हूँ.. युवा साहित्यकार अखिल नागदा ने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनाये जाने वाले धिनौने पड्यंत्रों को बेनकाब करती लघुकथा नारे का वाचन किया। प्रमोद सनाढ्य ने अपने चिरपरिचित अंदाज में अपना गीत बड़ी महशोश है तेरी, बंद करदे लू, छलकते जाम जैसी, ये आँखें बंद कर ले लू.. प्रस्तुत किया। शेख अब्दुल हमीद ने अपनी गजल सुनते हैं कि होते हैं दीवारों दर के कान.. सुनाई। अफजल खां अफजल ने कविता के कठिन रास्तों पर.. का वाचन किया। अय्याज मोहम्मद इलियास ने अपनी गजल खुली आँखों के तूने देख लिया है जमाने को जरा अपने को पहचान आंख बंद करके.. प्रस्तुत की। नगेन्द्र मेहता भव्य ने बाल कविता जलौंबा का वाचन किया। वरिष्ठ साहित्यकार



त्रिलोकी मोहन पुरोहित ने अपने गीत की इन पंक्तियों के साथ गोष्ठी का रस परिवर्तन किया- मन बनाकर मैं खुले में घूम आया हूँ.. धूप के कतरे मिले कुछ चूम आया हूँ.. माधव नागदा ने सामाजिक विमर्शपूर्ण पर प्रकाश डालने वाले हाइकु सुनाये। इसी प्रकार वरिष्ठ साहित्यकार कमर मेवाड़ी ने राजस्थानी भाषा में इन अपनी कविता झूठ रो पिटारो प्रस्तुत की। नरेंद्र निर्मल ने जादुई यथार्थवाद विमर्श की कविता रहस्य लोक का वाचन किया। गोष्ठी के सूत्रधार किशन कबीरा ने

कविता ईश्वर का वाचन इन पंक्तियों के साथ किया- जहाँ धर्म के साथ दया है, रहम और रहमतों के भाव जो गलत रास्ते पर चलने वाले से बदला नहीं लेता है, बल्कि बाने है हमसफर और पेश प्रदर्शक.. गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए त्रिलोकी मोहन पुरोहित ने गोष्ठी में प्रस्तुत सभी रचनाओं पर अपनी बात कही और प्रस्तुत सभी रचनाओं को समय के संप्रेषण और समाज के लिए प्रायोग्य बताया। आधार अखिल नागदा ने ज्ञापित किया।

## देसूरी में विद्यार्थियों की मृत्यु व दुर्घटना का मामला गंभीर




राजसमंद (पुकार)। परीक्षा की तैयारी रिलीजन की समयावधि में आमेठ ब्लॉक के राजकीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आमेठ से श्री परशुराम महादेव व अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर शैक्षणिक भ्रमण को निकले 61 विद्यार्थियों व 6 स्कूल स्टाफ का देसूरी की नाल स्थित पंजाब मोड़ पर बस पलटने से तीन बालिकाओं व 15 विद्यार्थियों के चोट प्रस्त होने पर जिला बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया तथा बाल आयोग को अगगत कराया। जिस पर बाल आयोग के सदस्य ध्रुव कुमार कविया ने संज्ञान लिया तथा सोमवार को राजसमंद पहुंचे। आयोग सदस्य के द्वारा बाल कल्याण समिति तथा बाल अधिकारिता विभाग के साथ बैठक कर जानकारी ली। बैठक के बाद आयोग सदस्य ध्रुव कुमार कविया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल



● बाल कल्याण समिति व बाल आयोग ने लिया संज्ञान  
● बालकों के मानसिक विकास के साथ सुरक्षा महत्वपूर्ण है : कविया

बनाने की बात कही। कविया ने परिजनों को पुरा सहयोग व राहत राज्य सरकार से मिले इसके लिए कार्यवाही में विद्यार्थियों से मिलने के बाद जिला कलक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा से मुलाकात कर मामले के संबंध में वार्ता की तथा विद्यार्थी बीमा का लाभ के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान भविष्य में सुरक्षा की इस रोक से सुगम उपशिक्षित परिवहन यात्रा हो इसके लिए त्वरित कार्यवाही हो इसके लिए आवश्यक बैठक की गई है, जिससे बहुत जल्द राहत सभी को मिले इस पर योजनाबद्ध किया जाएगा। घटना को लेकर आयोग सदस्य कविया,

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पालीवाल व सहायक निदेशक शेखावत ने सीबीओ मुकुट बिहारी व राजेंद्र गगड़ के साथ बैठक लेकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। बाल आयोग सदस्य ने बिना स्वीकृति तथा विषय के विपरीत तथा सरकार के नियमों के विरुद्ध बच्चों की सुरक्षा को खतरों में डाल कर बस में ले जाना तथा बस में भी ज्यादा संख्या में बैटन, ड्राइवर के घटना के बाद चले जाना, परिजनों व विभाग से लिखित स्वीकृति नहीं लेना लापरवाही है। इससे बच्चों की अकाल मृत्यु हुई तथा कई बालक घायल हुए हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पालीवाल ने बताया कि विद्यालय के बालकों को गंभीर परिस्थिति के दौर से निकले हैं तथा इसके लिए विशेष काउंसिलिंग तथा मेंडिटरन से जोड़ इसके लिए प्रयास किया जाएगा, जिससे परीक्षा व पढ़ाई को एकाग्रचित हो सके। इस दौरान बाल कल्याण समिति के बहादुरसिंह चारण, जेहेन्द्रसिंह चौधरी, रेखा गुर्जर, सीमा डागलिया, विभाग के कथिल चारण तथा रोहित उपस्थित थे।



## धर्मद्र के 89 साल पूरे होने पर सनी देओल ने शेर की मनमोहक तस्वीरें

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मद्र रविवार को अपना 89वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके बेटे, अभिनेता सनी देओल ने इस खास मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इंस्टाग्राम पर सनी ने एक वीडियो कोलाज शेयर किया है, जिसमें उनके साथ बिताए कुछ बेहतरीन पलों को दिखाया गया है। वीडियो में कई पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें दोनों गले मिलते, पहाड़ों में साथ में क्लाइमेट टाइम बिताते और एक-दूसरे की कंपनी का लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। कहा- यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है यह पोस्ट उनके खास रिश्ते को भावभीनी श्रद्धांजलि है, जिसमें भावुक और निजी दोनों तरह की यादें कैद हैं, जो उनके प्रशंसकों के दिलों में बसी हैं। अपने पिता धर्मद्र के लिए प्यार जताते हुए सनी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा। मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। धर्मद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो में से एक माना जाता है और उन्हें बॉलीवुड का ही-मैन भी कहा जाता है। उन्होंने शोले, प्रतिज्ञा और द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। अभिनेता को आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सेनन अभिनीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था। वह इक्कीस नामक एक युद्ध नाटक में भी दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में धर्मद्र मेगास्टार अमिताभ बचन के पोते अगस्त्य नंदा के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे।



## बिग बॉस 18: करणवीर मेहरा के सपोर्ट में उतरीं फराह खान और घरवालों की जमकर क्लास लगाई

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में लगभग सभी घरवाले करणवीर मेहरा को टारगेट कर रहे हैं। ईशा सिंह से लेकर विविजन डीसेना, रसतिका अर्जुन, रजत दलाल और अविनाश मिश्रा भी करण के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। ये सभी कंटेस्टेंट्स बार-बार करण को निशाना बना रहे हैं और उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। अब इसी बीच वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान की जगह फराह खान ने एंटी मारी। इस दौरान फराह ने घरवालों की खूब क्लास लगाई और बिग बॉस 18 को करणवीर मेहरा शो बना दिया। इस एपिसोड के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं और फराह खान का समर्थन कर रहे हैं। वीकेंड का वार एपिसोड में फराह खान ने रजत दलाल, ईशा सिंह और तंजिदर सिंह बग्गा की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने तंजिदर बग्गा को कहा कि वह हमेशा करणवीर की चुगली करते हैं और उनके घरवालों को लेकर उल्टी-सीधी बातें करते हैं। फराह खान ने सभी घरवालों से कहा कि आखिर सबका गेम केवल करण के ईर्द-गिर्द ही क्यों घूम रहा है? ईशा सिंह को भी उनके दोगले व्यवहार को लेकर फराह खान ने क्लास लगाई। वहीं उन्होंने करणवीर मेहरा को उनके खेल के लिए एक गोल्ड मेडल दिया। उन्होंने कहा कि अब यह शो द करणवीर मेहरा शो बन गया है। बता दें कि वीकेंड का वार एपिसोड के बाद फैंस फराह खान की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनका जमकर समर्थन भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आखिरकार वह दिन आ गया है, जब करण को न्याय मिला और उसकी ऑडियंस को भी। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, करणवीर मेहरा इस शो पर राज कर रहे हैं। एक ओर यूजर ने लिखा, अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड, आखिरकार चुगली गैंग को एक्सपोज कर दिया फराह ने।




## एपी दिल्ली के कॉन्सर्ट में मलाइका अरोड़ा ने स्टेज पर लगाए जबरदस्त तुमके

मुंबई में बीते दिन फेमस रैपर और सिंगर एपी दिल्ली ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस से पूरे शहर की नींद उड़ा दी। इस कॉन्सर्ट में हजारों की संख्या में फैंस इकट्ठा हुए थे तो वहीं बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने भी इस कॉन्सर्ट में शिरकत की, जिनमें से एक थीं एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा। अब मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस एपी दिल्ली के साथ स्टेज पर जबरदस्त अंदाज में तुमके लगा रही हैं। इस वीडियो में एपी दिल्ली एक्ट्रेस के लिए गाना गाते भी दिख रहे हैं। यह वीडियो आते ही इंटरनेट पर छा गया है। मलाइका अरोड़ा और एपी दिल्ली के इस वीडियो में विरल भयानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में मलाइका ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। वीडियो में एपी दिल्ली मलाइका के लिए तेरी या अदाबां गाना गा रहे हैं। तो वहीं एक्ट्रेस भी जबरदस्त डांस कर रही हैं। बता दें कि एपी दिल्ली इस बात को कबूल चुके हैं कि मलाइका अरोड़ा उनकी क्लास हैं और बचपन से ही वह एक्ट्रेस के फैन थे। इस वीडियो में मलाइका एपी दिल्ली को गले लगाते हुए भी दिख रही हैं। बता दें कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया है। 5 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए हैं। इस बात की जानकारी सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। अर्जुन ने कहा था कि अब मैं सिंगल हूँ, बताते चले कि मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। दोनों ने अपने वेकेशन की फोटोज शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट किया था। मलाइका और अर्जुन अक्सर क्लाइमेट टाइम बिताते भी दिख जाते थे। लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है।



# परिणीति चोपड़ा ने बताई क्यों टुकड़ाई थी ये 900 करोड़ी फिल्म



परिणीति चोपड़ा अपने करियर को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों को टुकड़ाया है, जो बाद में जाकर बॉक्सऑफ्टर हो गईं। इन फैसलों को लेकर आधा भी उन्हें पछतावा होता होगा। पर उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी 'चमकोला', उसके लिए काफी तारीफ हुई है। परिणीति चोपड़ा के करियर की शुरुआत से ही उनकी तुलना बहन प्रियंका चोपड़ा से होती रही। वो खुद भी मानती हैं कि उन्हें शुरुआत में कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए हैं। पर 'एनिमल' छोड़ने की वजह क्या थी? दरअसल परिणीति चोपड़ा को रणबीर कपूर की 'एनिमल' ऑफर हुई थी। वो उनकी पत्नी का रोल करने वाली थी। हालांकि, एक्ट्रेस के मना करने के बाद रश्मिका मंदाना को फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म ने बाद में 900 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। अब परिणीति चोपड़ा ने बता दिया है कि क्यों फिल्म टुकड़ाई थी?

### क्यों टुकड़ाई थी ये 900 करोड़ी फिल्म?


हाल ही में परिणीति चोपड़ा पति राघव चड्ढा के साथ 'आप की अदालत' में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ, फिल्म और जिंदगी से जुड़ी कई चीजों पर बातचीत की। जब उनसे एनिमल टुकड़ाने की वजह पूछी गई, तो परिणीति चोपड़ा ने कहा कि, सच कहूँ तो शायद ऊपर वाला उनके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा था। उन्होंने बताया कि, वो एनिमल करने वाली थी, सब कुछ कंफर्म हो चुका था, लेकिन सेम डेट्स पर उन्हें चमकोला का ऑफर आ गया।

## करिना कपूर ने मनाया सास शर्मिला टैगोर का जन्मदिन

बॉलीवुड स्टार करिना कपूर खान, जिन्हें हाल ही में थियेटर मूवी %सिंघम अगेन% में देखा गया था, अपनी सास शर्मिला टैगोर का जन्मदिन मना रही हैं। रविवार को, अभिनेत्री ने अपनी सास को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की।



तस्वीर में, दोनों को आरामदायक कपड़ों में देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, अब तक की सबसे कूल गैंगस्टा कौन है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? मेरी सास को जन्मदिन की शुभकामनाएँ। बस सबसे अच्छी। शर्मिला बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और सोहा अली खान की माँ हैं, और अपनी पीढ़ी की एक अग्रणी स्टार थीं। करिना और सैफ ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी। इस जोड़े ने 20 दिसंबर 2016 को अपने पहले बेटे तैमूर का स्वागत किया। उनके दूसरे बेटे जहांगीर का जन्म 21 फरवरी 2021 को हुआ। इससे पहले, अभिनेत्री सऊदी अरब में रेड सी फेस्टिवल में शामिल हुई थीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी फिल्म फेस्टिवल में अपनी यात्रा की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओपनिंग नाइट इससे पहले, अभिनेत्री ने अपने पालतू कुत्ते एल्विस के साथ पूल के किनारे आराम करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की थी। अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कैडिड क्लिक शेर की, जिसमें वह धूप सेंकती हुई और अपने प्यारे दोस्त के साथ क्लाइमेट टाइम एन्जॉय करती नजर आ रही थीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एल्विस को नमस्ते कहो, उसके बाद दिल वाला इमोजी। तस्वीर में बेबो पूल के किनारे आराम से लेटी हुई नजर आ रही हैं, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी है, और वे दिन की गर्मी का मजा ले रहे हैं। हालांकि अभिनेत्री ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तस्वीर में केवल उनके पैर दिखाई दे रहे थे।



## 4 दिनों में ही पुष्पा 2 का उठा ऐसा तूफान, खतरे में आया प्रभास का ये बड़ा रिकॉर्ड

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार 'पुष्पा द रूल' ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। हर दिन फिल्म अपने नाम कोई न कोई रिकॉर्ड बना रही है। ओपनिंग डे से ही फिल्म कमाई के मामले में जिस रफ्तार से भागी वो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रिलीज के चौथे दिन की कमाई की बात करें, तो 'पुष्पा' देश की सबसे तेज 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। पुष्पा के स्वेग ने कई दिग्गज स्टार्स को हवा में उड़ा दिया है। 'पुष्पा 2' की कमाई दूसरे दिन जहां थोड़ी धीमी हुई, वहीं इसने बाद के दिनों में तेजी से उछाल मारी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए, तो रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान लगाया जा रहा है कि चौथे दिन फिल्म 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। हालांकि, मेकर्स ने अभी ऑफिशियली तौर पर इसका डाटा शेयर नहीं किया है। उन्होंने तीन दिनों की वर्ल्ड वाइड कमाई के बारे में बताया है, जो कि 621 करोड़ रुपए है। कमाई की बढ़ती स्पीड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 5वें या 6वें दिन तक फिल्म 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आसानी से कर लेगी। देशभर में 'पुष्पा 2' की कमाई देखी जाए, तो चार ही दिनों में अपने पहले पार्ट की कमाई को आसानी से पार कर चुकी है और जल्द ही उसकी कमाई का दोगुना कलेक्शन भी कर लेगी। सैकनलक की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुष्पा 2' ने चौथे दिन 141.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसमें और दिनों की तरह ही हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की है। चौथे दिन की कमाई को लेकर 'पुष्पा 2' का टोटल कलेक्शन 529.45 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं प्रभास की फिल्म 'कल्क 2898 एडी' ने देशभर में 646.31 करोड़ की कमाई की थी, अब इसका रिकॉर्ड जल्द टूटने वाला है। चौथे दिन 'पुष्पा 2' ने तेलुगु वर्जन में 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं हिंदी वर्जन ने लगभग उसके दो गुने जितना यानी 85 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभी तक 'पुष्पा 2' ने हिंदी वर्जन में टोटल कमाई 285.7 करोड़ रुपए है, तो वहीं तेलुगु ने 198.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। केवल इन दो भाषाओं में नहीं बल्कि मलयालम, तमिल और कन्नड़ में भी फिल्म की कमाई में बढ़त नजर आ रही है।

# अधिशेष शिक्षकों के मनमाने पदस्थापन आदेशों का शिक्षक संघ शेखावत ने किया विरोध, आन्दोलन की चेतावनी

**डूंगरपुर(पुकार)।** जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत विभाग में अधिशेष शिक्षकों की काउन्सिलिंग करायें बिना मनमाने तरीके से पदस्थापन आदेश जारी करने का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने विरोध किया है।

प्रतीय उपाध्यक्ष हेमंत कुमार खराड़ी ने बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से पदोन्नति तथा अधिशेष सहित तमाम तरह के पदस्थापनों में शिक्षकों की काउन्सिलिंग करके पदस्थापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहे थे। वर्तमान सरकार से भी संगठन ने शिक्षा विभाग में अधिशेष शिक्षकों की काउन्सिलिंग करके पदस्थापन आदेश जारी करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने संगठन की मांग को दरकिनार कर बीच सत्र में

निर्देशों के आधार पर अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन बिना काउन्सिलिंग करायें आदेश जारी कर दिए। शिक्षा अधिकारियों ने निर्देशों के विपरीत तमाम अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन मनमाने तरीके से कर दिए हैं जिनमें भाई भतीजावाद को बड़ा दिया जाने तथा भूछात्र की गंध आ रही है। जिसका संगठन पुरजोर तरीके से विरोध करता है।

संगठन के जिलाध्यक्ष मणिलाल मालीवाड व जिलामंत्री धनराज खराड़ी ने कहा कि वर्षों से चली आ रही काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल आबंटन पारदर्शी तरीके से होता था लेकिन काउन्सिलिंग की परंपरा को बंद कर निर्देशों एवं मापदंडों के विपरीत विकलांग गंधीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को तथा विधवा एवं परिव्यागिता महिलाओं को दूरस्थ स्थान

पर पदस्थापन का संगठन विरोध करता है। तथा भविष्य में होने वाले सभी तरह के पदस्थापनों की काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन किये जाने की संगठन मांग करता है।

प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य लीलाराम भगोरा ने कहा कि पीड़ित शिक्षकों की परिवेदना लेकर उन्हें राहत प्रदान की जावे। यदि शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो संगठन मजबूर होकर आन्दोलन के लिए बाध्य होगा। डूंगरपुर बार एसोसिएशन डूंगरपुर की वर्ष 2025 के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सचिव के पद के लिए 13 दिसम्बर 2024 को होने वाले चुनाव के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता नारायणलाल मोडिया, महासचिव पद के लिए अधिवक्ता सादेकिन जमान पटन, संयुक्त सचिव के लिये अधिवक्ता अमृतलाल भमात एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता अमोल जैन द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किया। नामांकन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम 10 दिसम्बर है।

एक-एक नामांकन पत्र लिये गये। निर्वाचन अधिकारीगण अधिवक्ता प्रकाश पटेल एवं अब्दुल सलाम, प्रकाश चन्द्र परमार एवं नागेन्द्रसिंह चुण्डावत ने बताया कि बार एसोसिएशन डूंगरपुर की वर्ष 2025 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सचिव के पद के लिए 13 दिसम्बर 2024 को होने वाले चुनाव के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता नारायणलाल मोडिया, महासचिव पद के लिए अधिवक्ता सादेकिन जमान पटन, संयुक्त सचिव के लिये अधिवक्ता अमृतलाल भमात एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता अमोल जैन द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किया। नामांकन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम 10 दिसम्बर है।

# श्री एकलिंग नाथ पालीवाल सेवा संस्थान ने किया समाज की बेटी का स्वागत

राजसमंद (पुकार)। जिले में पालीवाल, दिनेश पालीवाल, माधवलाल पालीवाल, राधेश्याम



अधिकारी लतिका पालीवाल का श्री एकलिंग नाथ पालीवाल सेवा संस्थान जिला के पदाधिकारियों ने सोमवार को इकलाई एवं एकलिंग नाथ भगवान की छवि भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष हगामीलाल पालीवाल, सचिव एडवोकेट भरत

# सक्षिप्त समाचार

## चौहान बने राजस्थान शूटिंग टीम के सहायक प्रशिक्षक

**राजसमंद (पुकार)।** देलवाड़ा ब्लॉक में पीएमश्री राजमावि कागमराड़ा के शारीरिक शिक्षक विक्रमसिंह चौहान को इंदौर मध्यप्रदेश में 20 से 24 दिसम्बर को आयोजित होने वाली 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी शूटिंग प्रतियोगिता 17 वर्ष छात्र-छात्रा में शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा राजस्थान शूटिंग टीम का सहायक प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। प्रतियोगिता पूर्व तैयारी के लिए 13 से 17 दिसम्बर को राजमावि करमीसर बीकानेर में छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। चौहान वर्तमान में जिला शारीरिक शिक्षक संघ सचिव राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सदस्य होकर सभी खेलों में महती भूमिका निभाते हैं। ये स्वयं राष्ट्रीय खिलाड़ी होकर कई बार राज्य व राष्ट्र स्तरीय खेलों में निर्णायक, मैनेजर व प्रशिक्षक की भूमिका निभा चुके हैं। इनकी नियुक्ति पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया। यह जानकारी वरिष्ठ अध्यापक तुलसीराम सालवी ने दी।



विक्रमसिंह चौहान

## राजेंद्रसिंह अमृतिया बने गऊ रक्षा हिंदू दल के प्रदेश महामंत्री

**आसपुर(पुकार)।** गौ सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने पर तथा उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए गऊ रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर तथा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष कालूराम पटेल की अनुशंसा पर राजेंद्रसिंह अमृतिया को गऊ रक्षा हिंदू दल का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। अमृतिया के महामंत्री बनाए जाने की सूचना पर गौ रक्षा हिंदू दल की प्रदेश, जिला एवं उपखंड कार्यकारी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी गई। वहीं उपखंड आसपुर की टोली के द्वारा सिंह का गऊ रक्षा हिंदू दल कार्यालय पर भव्य स्वागत कर बधाई दी गई।



## देसूरी नाल हादसे के विरोध में सर्वसमाज आज करेंगे प्रदर्शन

**देसूरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति का ऐलान**  
**राजसमंद (पुकार)।** देसूरी नाल में पंजाब मोड़ पर बढ़ते सड़क हादसों के विरोध में देसूरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर सर्वसमाज के लोग मंगलवार को जिला कलकट्टी में एकत्रित होंगे। सर्वसमाज द्वारा कलकट्टी के पास जेके गार्डन में विशेष सभा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम जिला कलकट्टी को ज्ञापन दिया जाएगा। देसूरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष भविरसिंह मारवाड़ा ने बताया कि देसूरी नाल में रविवार को हुए हादसे में राखेटी की तीन बालिकाओं की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 2007 को देश का सबसे बड़ा सड़क हादसा हो चुका है। उसके बाद भी आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन न तो परिवहन, आरएसआरडीसी द्वारा गंभीरता से लिया गया और न ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की बेमौत रही है।

## साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

**सम्पर्क पोर्टल पर जो भी परिवेदना प्राप्त हुई है उन्हें समय पर निस्तारण करें-जिला कलक्टर सिंह**  
**डूंगरपुर(पुकार)।** जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर सिंह ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर जो भी परिवेदना प्राप्त हुई है, उन्हें समय पर निस्तारण करें तथा सम्पर्क पोर्टल पर ई-फाईलिंग के माध्यम से कार्य करने के लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान पेयजल वितरण, जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य शेष है, उनको शीघ्रतापूर्वक करें। विद्युत विभाग से बिजली वितरण, पीएम सुर्य पर योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किए कनेक्शन की जानकारी लेते हुए अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। चिकित्सा विभाग से आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी कार्ड समय पर बनवाने के लिए सही मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सामाजिक कल्याण विभाग से पेंशन वेरिफिकेशन, पालनहार योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश थाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकेशचन्द्र मीणा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

## राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक 24 दिसम्बर को

**डूंगरपुर(पुकार)।** राजस्व अधिकारियों की समीक्षा एवं अवैध खनन संबंधी बैठक 24 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे ईडीपी हॉल जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश थाकड़ ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

## स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य

**डूंगरपुर(पुकार)।** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के निर्देशानुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 के प्रावधानों के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों को उद्योग की स्थापना एवं संचालन से पूर्व मण्डल से स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। श्रेणीय अधिकारी रवि कुमार चन्देले ने बताया कि ऐसी इकाइयों को जल एवं वायु अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के लिए मण्डल द्वारा 1 दिसम्बर से 29 जनवरी 2025 तक 60 दिनों के अन्तर्ध के लिए शर्तों के साथ विशेष छूट योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। नगरी और हरे रंग की श्रेणी में आने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी जो अभी तक सम्मति प्रबंधन के अन्तर्गत नहीं आए हैं एवं प्रथम बार सम्मति चाह रहे हैं। उक्त प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति के लिए मौजूद प्रक्रिया, शुल्क के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एक बार की छूट के रूप में ऐसी इकाइयों को अब तक संचालन में रहे वर्षों के लिए पिछली भिस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं छूट प्रदान की गई है।

## तीस दिवसीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रमा सम्पन्न

**डूंगरपुर(पुकार)।** बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान डूंगरपुर की ओर से एक माह का ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में फेसियल,वेक्स, हेयर कटिंग, मेकअप आदि सिखाया गया। मूल्यंकन महेंद्र कुमार जैन व वंदना सोनी द्वारा किया। जिसमें सफलतापूर्वक सभी प्रशिक्षणार्थियों भाग लिया। समापन समारोह में संस्थान के निदेशक मनोज सुथार ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की बधाई दी और स्वयं का रोजगार शुरू कर जीवन सफल बनाने की कामना करते हुए कहा कि आगामी दिनों में डूंगरपुर सेंटर में घर की विद्युत वायरिंग सहितम अन्य प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सभी आवेदनकर्ता संस्थान पर आवश्यक दस्तावेज लेकर आये, इस मौके पर संस्थान के फेकल्टी जय प्रकाश बलाई व अब्दुल अजीज खान ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यालय सहायक करुणा तंवर ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी के उज्वल भविष्य की कामना की।

## समाज के सहयोग से ही विद्यालय का विकास संभव : शर्मा



**राजसमंद (पुकार)।** जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मोही कस्बे में संचालित पीएमश्री नंदलाल जोशी राजमावि में दो दिवसीय एसएमसी/एसडीएमसी का आयोजन संस्था प्रधान उमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य रोशनलाल रैगर ने इस कार्यशाला के माध्यम से विद्यालय एवं समुदाय की सहभागिता से होने वाले लाभों पर

# वेदांता हिन्दुस्तान जिंक के विश्व के पहले जिंक पार्क की घोषणा

**राजसमंद (पुकार)।** राज्जिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में वेदांता की हिन्दुस्तान जिंक ने राजस्थान में दुनिया के पहले औद्योगिक जिंक पार्क के योजना की ऐतिहासिक घोषणा की प्रदेश के औद्योगिक भविष्य में इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने वेदांता के राजस्थान में जिंक, ऑयल एण्ड गैस तथा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश में जिंक पार्क को महत्वपूर्ण बताया। महात्वाकांक्षी गैर-लाभकारी जिंक पार्क एक परिवर्तनकारी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। जो मेटलस और मैनुफैक्चरिंग में अपस्ट्रीम और एडजस्ट्रीम दोनों उद्योगों को आगे बढ़ाएगा। समारोह के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबबार

औद्योगिक भूमि, विश्वस्तनीय उपयोगिता, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी लागत प्रदान करेगा जिससे व्यवसाय निर्बाध रूप से अपना संचालन कर सकेंगे। पार्क पूर्ण रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर संचालित होगा। जो हिन्दुस्तान जिंक की सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह बड़े उद्यमों से लेकर एनएसईआई और नये उद्यमियों के उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपये से कम के शुरुआती निवेश के साथ व्यापक मंच प्रदान करेगा। जो जिंक, लेड और सिल्वर तथा संबंधित सहउत्पाद की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त पार्क सल्टायर्स, रॉ मेटेरियल, मेनटेनेन्स सर्विस और इन्फ्रामेंट सप्लायर्स के लिए लागत प्रभावी और संसाधन-कुशल वातावरण प्रदान करेगा। जिंक पार्क नवाचार का केंद्र भी होगा। जिसमें हिन्दुस्तान जिंक के उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं

# राजलीसा मण्डल उपाध्यक्ष ने जेडीओ को सौंपा ज्ञापन

**राजसमंद (पुकार)।** राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद के तत्वाधान में पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची जारी करवाने के लिए संयुक्त निदेशक उदयपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडल उपाध्यक्ष बृजेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न मंडलों की सत्र 2023-24 की पदोन्नति आरपीएससी से हो गई है, जबकि उदयपुर मंडल की सत्र 2023-24 की वरिष्ठता सूची आज दिन तक जारी नहीं हुई है। इसके लिए संयुक्त निदेशक से मिलकर प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के पुस्तकालय अध्यक्ष संयुक्त निदेशक कार्यालय उदयपुर पहुंचे। अतिरिक्त संयुक्त निदेशक सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि जल्द ही सत्र 2022-23 का अनुमोदन आरपीएससी से होने



वाला है। आरपीएससी से सत्र 2022-23 का अनुमोदन होते ही 2023-24 की वरिष्ठता संबंधी समस्त कार्य संपादित कर दिए जाएंगे।

## विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन



**राजसमंद (पुकार)।** राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान के तहत नाथद्वारा तहसील स्थित ग्राम सायो का खेड़ा में जिला प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष अग्रवाल ने राबाउमावि में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्राधिकरण अध्यक्ष राधवेन्द्र काछवाल के

निर्देशानुसार एक्शन प्लान में वर्णित अनुसार इस विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली जारी योजनाओं यथा तस्कारी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित योजना 2015, आदिवासी अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं एवं आपदा

## मारपीट करने वाला बदमाश गिरफ्तार

**डूंगरपुर(पुकार)।** कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक भी जब्त कर ली है।

कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि भावेश पुत्र दौलतराम खराड़ी निवासी गुंदी कुआं ने रिपोर्ट में बताया कि 21 मार्च को दोपहर के समय वह अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में बस स्टैंड से आगे जाते ही एक बाइक पर 4 बदमाश आए। बदमाशों ने उसे रोक्कर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से मना करने पर चारों ने लात-बूत्सों से जमकर मारपीट की। इससे उसके सिर से खून निकल



आया और चोट आई। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एएसआई अशोक कुमार, कानि. अर्जुन, चंद्र प्रकाश की टीम ने छानबीन करते हुए आरोपी राहुल निवासी गुंदी कुआं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पृच्छाछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली है। वहीं उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है।

## नहरों का हाल खस्ताहाल कौन इसका जिम्मेदार-फाल्गुन

**डूंगरपुर (पुकार)।** भारत की कस्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के ब्लॉक सचिव फाल्गुन भरद्वाज ने कहा कि नेताओं ने रविवार दोनों नहरों का जायजा लिया था। कोडियारुण बांध से निकलने वाली दोनों तरफ कि नहरों का निर्माण किसानों को पानी पहुँचाने के लिए हुआ है, लेकिन नहरों में काफी समय तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ। नहरों के हालात खस्ताहाल पड़े हुए हैं, भरतपुर होते हुए शरम गांव की ओर जाने वाली नहर की हालात इतने बुरे हैं कि जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है, कई किसानों के खेत खराब हो रहे हैं तो कई किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, तो शरम गांव के किसान और आगे दो गांवों के किसान पानी को तरस रहे हैं, शरम गांव को जोड़ने वाली नहर में भरतपुर गांव के ही पानी सड़क पर



मलबा नहर में पड़ा हुआ है, अभी दोनों नहरों में पानी आधे गांवों तक ही पहुँचा है, जिस तरीके से विभाग की मनमानी के चलते किसान बिना पानी के तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि रखर-खाव कार्य में मिलने वाले बजट का आखिर उपयोग कहा हो रहा है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। शीघ्र ही जिला कलक्टर को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रवीण डूंगर ने कहा कि, सिंचाई विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट तरीके से काम

## राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर महाराज ससंध पहुंचे नागफणी मंदिर

**डूंगरपुर(पुकार)।** राष्ट्रसंत मुनि पुलक सागर महाराज ससंध का सोमवार को मोंदर के नागफणी मंदिर परिसर में मंगल प्रवेश हुआ। गाजे बाजे के साथ संत के जैन श्रद्धालुओं ने राष्ट्र संत की अंगुआई की। पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया। राष्ट्र संत के सानिध्य में 11 दिसंबर को दीक्षा जयंती महोत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही अगले साल 10 से 15 फरवरी तक मोंदर में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठ महोत्सव के पात्र का चयन होगा। राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर महाराज का 7 दिसंबर को उदयपुर के खेवाड़ा से डूंगरपुर जिले के शिखर गांव में मंगल प्रवेश हुआ। संत पुलक सागर महाराज का सोमवार को चुंडावाड़ा से विहार कर नागफणी मंदिर



परिसर में मंगल प्रवेश हुआ। गाजे-बाजे के साथ जैन समाज के लोगों ने महाराज की अंगुआई की। रास्ते में जगह-जगह महाराज संघ का स्वागत कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। मनोज धनपाल

## बिछीवाड़ा हाईवे पर चलती कार में लगी आग

### समय रहते चालक निकाला बाहर, बड़ा हादसा टला

**डूंगरपुर(पुकार)।** जिले के बिछीवाड़ा एनएच-48 पर सोमवार देर शाम को चलती कार आग की भेंट चढ़ने पूरी तरह से जल कर खाक हो गई। चालक ने समय रहते बाहर आने से बड़ा हादसा होने टला गया। प्रास जानकारी अनुसार राजसमंद हाल निवासी सूरज गुजरात निवासी मांगीलाल पुत्र रामलाल सोमवार को गुजरात के सुरत से कार लेकर राजसमंद की ओर जा रहा था। जैसे कार लेकर एनएच 48 बिछीवाड़ा पर पहुंचा की कार पीछे धुंवां निकलते हुए दिखाई दिया। इस दौरान बिछीवाड़ा पंचायत समिति कार्यरत अजय मीणा ने कार से निकलते हुए धुंवां के बारे जानकारी

## बिछीवाड़ा हाईवे पर चलती कार में लगी आग



कार चालक दी। जिस पर कार चालक मांगीलाल कार से बाहर निकलते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते कार आग की भेंट चढ़ गई। सूचना मिलने पर मौके पर बिछीवाड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पहुंची तथा आग पर काबू पाया। आग से कार पूरी तरह से जल राख हो गई। समय रहते कार चालक बाहर निकलने से बड़ा हादसा होने टल गया।

## संक्षिप्त समाचार

### शिल्पग्राम उत्सव की तैयारी हेतु बैठक आज

उदयपुर (पुकार)। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर द्वारा आयोजित दस दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव की सुचारू व सफल आयोजन हेतु बैठक शिल्पग्राम में जिला कलेक्टर के सानिध्य में मंगलवार 10 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे रखी गई है। जिसमें विविध व्यवस्थाओं एवं विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे।

### शिल्पग्राम उत्सव हेतु स्टॉलों की खुली निलामी

उदयपुर (पुकार)। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर द्वारा आयोजित शिल्पग्राम उत्सव - 2024 हेतु शिल्पग्राम परिसर में खाने के व्यंजन/फूड, आइस्क्रीम आदि स्टॉलों की खुली बोली द्वारा निलामी शिल्पग्राम परिसर में की जावेगी। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर केन्द्र निदेशक फुकान खान ने बताया कि खाने के व्यंजन/फूड स्टॉल की खुली निलामी दि. 11 दिसम्बर 2024 को, आईस्क्रीम, ज्यूस स्टॉल व गन्ने का रस, गुड, बैल चालित चरखिया तथा शिल्पग्राम चौपाल ढाबा दि. 12 दिसम्बर 2024 को तथा खुरजा पोटी, कारपेट सहारनपुर, लकड़ी फर्निचर की खुली निलामी 13 दिसंबर 2024 को शिल्पग्राम परिसर में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी।

### अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर आज

उदयपुर (पुकार)। विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से मंगलवार, 10 दिसंबर को रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शांतिराज अस्पताल, केसर कुंज रोड, डॉ. डी.पी. सिंह लेन, न्यू भूपालपुरा में होगा। एम स्क्वेयर प्रोडक्शन एंड इवेंट्स के सीईओ मुकेश माधवानी ने बताया कि इस दिन सुबह 11 बजे अशोका पैलेस में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के.जी. गुप्ता और कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल जायसवाल, संभागीय अध्यक्ष विकास गोड़, प्रदेश महामन्त्री लोकेश पंचोली सहित अन्य पदाधिकारियों को उनके सामाजिक सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा।

आयोजक निखिल नैनावा ने बताया कि कार्यक्रम के लिए कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एडिशनल एस.पी. उमेश ओझा, आईजी राजेश मीणा (एसीबी), डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल को आमंत्रित किया गया है।

### सार्वजनिक पार्क की स्वच्छता के लिए रोटरक्टर्स ने की पहल

उदयपुर (पुकार)। रोटरक्ट क्लब ऐश्वर्या द्वारा आम्रपाली नगर स्थित सार्वजनिक पार्क में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हमारे उद्यानों की स्वच्छता बनाए रखना और स्वच्छता हेतु जन जागरूकता फैलाना था।

रोटरक्ट क्लब के अध्यक्ष रोटरक्टर शमील शेख ने बताया कि हमारे उद्यान तथा सार्वजनिक स्थान हमारी सामूहिक धरोहर हैं, जिन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम प्रकृति के प्रति सम्मान भी व्यक्त करते हैं। प्रोग्राम चेयरमैन रोटरक्टर प्रीत गर्ग ने बताया कि सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम कचरा फैलाने से बचेंगे, अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक साफ-सुथरा उद्यान पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ ही यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इस सफाई अभियान में रोटरक्टर दिक्षा सुथार, रोटरक्टर चाहत माली, रोटरक्टर हर्षिता राणा, रोटरक्टर मितांशी पालीवाल, रोटरक्टर अंजलि डाम्गी, रोटरक्टर योगेश सुथार, रोटरक्टर कनिष्क पाटवा, रोटरक्टर लविश सोलंकी, रोटरक्टर कुशाल नलवाया, रोटरक्टर किशोर गोयल एवं अन्य विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

### एमनेस्टी योजना के तहत प्रकरण का निस्तारण

उदयपुर। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार एमनेस्टी योजना-2024 के तहत वर्ष 2020-21 के पुराने बकाया प्रकरण के तहत बांसवाड़ा के बकायादार अजय कुमार निनामा को प्रेरित 8 लाख 39 हजार 217 रूपए की बाकीयात जमा करते हुए बकाया वसूली के लंबित प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी बांसवाड़ा देवेन्द्र कुमार दशोरा ने बताया कि एमनेस्टी योजना 2024 जो कि दिसम्बर 2024 तक लागू है के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बकाया प्रकरणों में समस्त ब्याज की माफी तथा मूल बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है तथा इससे पूर्व के प्रकरणों में समस्त ब्याज की माफी तथा मूलधन पर 75 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के इस बकाया प्रकरण में मय ब्याज कुल राशि लगभग 30 लाख रूपए बन रही थी लेकिन इस पर बकायादार अजय निनामा ने छूट का लाभ उठाते हुए आबकारी जिला कार्यालय में 8 लाख 39 हजार रूपए का चालान जमा कराते हुए प्रकरण का निस्तारण करावाया। उक्त प्रकरण के निस्तारण में आबकारी निरीक्षक राजीव सिंह, लेखाधिकारी शैलेश भावसार का योगदान रहा।

### हजरत गंज शहीदा बाबा के उर्स का आगाज

उदयपुर (पुकार)। शहर के अम्बावगढ़ स्थित दरगाह हजरत गंज शहीदा बाबा के तीन दिवसीय 76वें उर्स का आगाज सोमवार को दरगाह परिसर में परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। दरगाह कमटी के सदर गुलाम मोईनुद्दीन कादरी राजा भाई ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंज शहीदा बाबा का तीन दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है, जिसके चलते सोमवार को आस्ताना-ए-आलिया परिसर में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। मोहसिन हेदर ने बताया कि उर्स पहले दिन कुरआन ख्वानी का आयोजन किया गया। साथं को अन्न की नमाज के बाद अम्बावगढ़ से परचम को लेकर आस्ताना ए आलिया पर अकीदतमद हजरत पहुंचे जिसके बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। फातिहा ख्वानी व लोबान की रस्म अदा की गई। फातिहा मौलाना बाबुल हुसैन दरग पढ़ी गई। मंगलवार रात्रि बाद नमाज इश्ना महफिले सभों में कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया जायेगा। जिसमें कव्वाली पार्टीयां कलाम पेश करेंगी। व रात्रि को संदल व गुस्ल की रस्म को अदा किया जाएगा। बुधवार को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा।

### उदयपुर (पुकार)। शहर के अम्बावगढ़ स्थित दरगाह हजरत गंज शहीदा

बाबा के तीन दिवसीय 76वें उर्स का आगाज सोमवार को दरगाह परिसर में परचम कुशाई की रस्म के साथ हुआ। दरगाह कमटी के सदर गुलाम मोईनुद्दीन कादरी राजा भाई ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंज शहीदा बाबा का तीन दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है, जिसके चलते सोमवार को आस्ताना-ए-आलिया परिसर में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। मोहसिन हेदर ने बताया कि उर्स पहले दिन कुरआन ख्वानी का आयोजन किया गया। साथं को अन्न की नमाज के बाद अम्बावगढ़ से परचम को लेकर आस्ताना ए आलिया पर अकीदतमद हजरत पहुंचे जिसके बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। फातिहा ख्वानी व लोबान की रस्म अदा की गई। फातिहा मौलाना बाबुल हुसैन दरग पढ़ी गई। मंगलवार रात्रि बाद नमाज इश्ना महफिले सभों में कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया जायेगा। जिसमें कव्वाली पार्टीयां कलाम पेश करेंगी। व रात्रि को संदल व गुस्ल की रस्म को अदा किया जाएगा। बुधवार को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन होगा।

### रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन 12 को

उदयपुर (पुकार)। वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन का आयोजन गुरुवार 12 दिसंबर सुबह 7 बजे काले किवाड फतहसागर से टाया पैलेस फतहसागर की पाल तक होगा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आयोजन में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आयोजन के लिए जिला खेल अधिकारी डॉ.महेश पालीवाल को नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे।

### विद्यार्थियों को 25-25 हजार की राशि के चेक वितरित

उदयपुर। शहर के जोगी तालाब स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एपिरोक कंपनी की ओर से सीएसआर के तहत महाविद्यालय के पांच मेधावी एवं जूरुस्तमद विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये की राशि के चेक वितरित किए गए। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। इस मौके पर लाभाभी विद्यार्थियों ने अपनी विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य सी.एस. टॉक ने कंपनी अधिकारियों को धन्यवाद दिया व विद्यार्थियों को संबोधित कर शिक्षा में प्रगति हेतु प्रोत्साहित किया।



## उदयपुर में अरावली के बीच यह बर्फ का पहाड़ नहीं, मार्बल स्लरी है ...

उदयपुर (पुकार)। यह कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, ना ही किसी झील की पाल है।

यह उदयपुर-ईसवाल रोड पर उदयपुर शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर स्थित विजयबावड़ी पंचायत के मदारड़ा क्षेत्र में मार्बल स्लरी का पहाड़ है। उदयपुर में सुखे, अंबेरी, भुवाणा क्षेत्र में स्थित मार्बल फैक्ट्रियों,

गैंगसा से निकलने वाली मार्बल स्लरी को लंबे समय से यहां खाली किया जा रहा है।

इसके चलते अब यहां पहाड़ों के बीच दूर से ऐसा दृश्य नजर आता है मानों अरावली की पहाड़ियों के बीच कोई बर्फ का पहाड़ हो।

पूर्व में मार्बल स्लरी को चित्रकूट नगर भुवाणा में खेल

गांव के पास पहाड़ियों के बीच खाली किया जाता था। इस ड्रिपिंग यार्ड के सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बनने से तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर यूआईटी ने यार्ड के लिए आरक्षित जमीन को अनारक्षित किया। उसके बाद नया ड्रिपिंग यार्ड गोगुदा के चोखावड़ी (नया नाम विजयबावड़ी) में स्थापित करना तय कर यहां 56 हेक्टेयर (करीब 258

बीघा) जमीन मार्बल स्लरी खाली करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मार्बल प्रोसेसर समिति को आवंटित की गई थी। उसके बाद से मार्बल स्लरी यहीं पर खाली की जा रही है। इसके चलते यहां भी धीरे धीरे स्लरी का पहाड़ नजर आने लगा है।

फोटो/कटेंट : लकी जैन उदयपुर

## उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु निजी खातेदारी की जमीन अधिग्रहित होगी

### दो दिवसीय जन सुनवाई

#### 19 दिसंबर से

उदयपुर (पुकार)। उदयपुर एयरपोर्ट के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार के लिये अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित करने हेतु आसपास क्षेत्र की निजी भूमि अवास किये जाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस हेतु प्रभावित क्षेत्र के हितधारकों/खातेदारों हेतु 2 दिवसीय जनसुनवाई का आयोजन 19 दिसंबर से होगा।

एसडीएम मावली रमेश सीरवी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र तहसील मावली के राजस्व ग्राम डबोक,

गणोली, तहसील वल्लभनगर के राजस्व ग्राम टुस डिंगियान, रावतपुरा, टुस, एवं मंदेशर जिला उदयपुर की बिलानाम एवं खातेदारी भूमि को

विकास एवं विस्तार के लिये अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित कराये जाने हेतु इस भूमि में सम्मिलित 126.1010 एकड़निजी भूमि अवास किया जाना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का

अधिकारी अधिनियम के अनुसार तथा इस संबंध में राज्य सरकार के नियमानुसार उदयपुर एयरपोर्ट के

विकास एवं विस्तार के लिये अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हेतु भूमि अवासि के लिए सामाजिक समाघात प्रभाव के अंतर्गत सुनवाई का आयोजन किया जाना है।

इस क्रम में दिनांक 19 दिसंबर गुरुवार को ग्राम पंचायत डबोक में दोपहर 3 बजे से जनसुनवाई आयोजित होगी जिसमें ग्राम डबोक एवं गणोली के प्रभावित हितधारक/खातेदार शामिल हो पाएंगे वहीं 20 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से ग्राम पंचायत टुस डिंगियान में टुस डिंगियान, रावतपुरा, टुस, मंदेशर के प्रभावित हितधारक/खातेदार शामिल हो सकेंगे।

### गुजरात की चित्रकार मौलिका देसाई द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रारम्भ



उदयपुर (पुकार)। चित्रकार मौलिका देसाई द्वारा बनायी गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी बागोर की हेवली स्थित कलीवीथी में प्रारम्भ हुई। इन पेंटिंग्स में वडोदरा की ऐतिहासिक मूर्तियों वास्तुकला, इमारतों और अन्य स्मारकों को दर्शाया है।

वडोदरा के गोजी क्षेत्र की कलाकार मौलिका देसाई द्वारा बनाई गई 40 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी गुजरात राज्य ललित कला के सहयोग से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन ख्यातनाम चित्रकार शैल चोपल, फड चित्रकार कल्याण जोशी, जैन सोशयल रूफ अन्ता की अध्यक्ष शिल्पा नाहर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक कमलेश शर्मा, अकिटेक्ट सुनील लड़ा, कार्यक्रम अधिकारी हेमंत मेहता ने किया।

इस अवसर पर मौलिका देसाई ने कहा कि उन्होंने अब तक अनेक प्रदर्शनी आयोजित की है। यह उनकी तीसरी एकल प्रदर्शनी है। जिसमें कैनवास पर तेल, ऐक्रेलिक सहित वॉटर कलर समेत विभिन्न माध्यमों से बनी करीब 40 पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी में मौलिका देसाई ने राजस्थान की फड पेंटिंग को समकालीन कला शैली में नए ढंग से ढालने का प्रयास किया है। इसके अलावा कीर्तिमंदर, लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा सेंट्रल, सोयापटी, गोजी की इस्कोन हबट्स और अन्य आकर्षण सहित वडोदरा शहर की ऐतिहासिक विरासत को दिखाया गया है।

मौलिका ने अपने पति भावेश देसाई के साथ यात्रा के अनुभवों को भी अपनी पेंटिंग में कैद किया है। फड पेंटिंग राजस्थान की एक पारंपरिक कला शैली है। जिसे मैंने साड़ी, कुर्ता समेत फैब्रिक पर भी डिजाइन किया है।

80 लाख की लागत से निर्मित लायन्स क्लब द्वारा संचालित किया जाने वाला राज्य का पहला डायलिसिस सेन्टर



उदयपुर (पुकार)। विश्व के सबसे बड़े सेवाभावी संगठन लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष ब्राजील के फ्रेन्सियो आंलीवीरा व उनकी पत्नी एमरीलेस आंलीवीरा दो दिवसीय यात्रा पर 11 दिसम्बर को उदयपुर पहुंचेंगे। लायन्स क्लब द्वारा संचालित किया जाने वाला यह राज्य का पहला डायलिसिस सेन्टर है। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रीय के पूर्व निदेशक लायन डॉ वी.के.लाडिया ने बताया

झीलों को प्रदूषण मुक्त रखने नगर निगम ने किए कई प्रयास रांसद डॉ मल्लाल रावत के प्रश्न पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री ने दिया जवाब

उदयपुर (पुकार)। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उदयपुर को रामसर साइट के रूप में नामांकित कराने के लिए रामसर सचिवालय को प्रस्ताव भेज रखे हैं। वहीं नगर निगम उदयपुर की ओर से झीलों के प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।

यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं

### अधिकार केन्द्रित जागृति अभियान चलाने वाले एनजीओ की बैठक आज

उदयपुर (पुकार)। विश्व मानवाधिकार दिवस पर आज स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक होगी। राजस्थान विद्यापीठ में आज प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक अलग-अलग सत्रों में एनजीओ की वर्कशॉप होगी, जिसमें राजस्थान के 25 एनजीओ प्रतिभागी होंगे।

उद्देखनीय है कि राजस्थान में कार्यरत भारत प्रथम उद्देश्य को सामने रख अधिकार केन्द्रित जागृति अभियान चलाने वाले एवं आभावरसत्तों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने वाले एनजीओ की द्वितीय एक दिवसीय वार्षिक बैठक है। इसी तरह पहली बैठक 10 दिसम्बर 2023 को विश्व मानवाधिकार दिवस पर जयपुर में हुई थी।

## लायन्स क्लब के डायलिसिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कल

80 लाख की लागत से निर्मित लायन्स क्लब द्वारा संचालित किया जाने वाला राज्य का पहला डायलिसिस सेन्टर



उदयपुर (पुकार)। विश्व के सबसे बड़े सेवाभावी संगठन लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष ब्राजील के फ्रेन्सियो आंलीवीरा व उनकी पत्नी एमरीलेस आंलीवीरा दो दिवसीय यात्रा पर 11 दिसम्बर को उदयपुर पहुंचेंगे। लायन्स क्लब द्वारा संचालित किया जाने वाला यह राज्य का पहला डायलिसिस सेन्टर है। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रीय के पूर्व निदेशक लायन डॉ वी.के.लाडिया ने बताया

है और इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिये शहर में पहली बार लायन्स क्लब के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इस सेन्टर का प्रबन्धन भीलों का बेदला स्थित पेसिफक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल द्वारा किया जायेगा। यहां पर पीएमसीएच के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष सोनी व उनकी टीम द्वारा किडनी रोगियों का डायलिसिस किया जायेगा। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि पीएमसीएच के संस्थापक एवं चेयरमैन राहुल अग्रवाल होंगे।

लायन्स क्लब के मल्टीपल कॉन्सिल के पूर्व चेयरमैन लायन अरविन्द शर्मा ने बताया कि लायन्स क्लब विश्व का सबसे बड़ा सेवा भावी संगठन है जो 209 देशों में करीब 14 लाख सदस्यों व 49 हजार क्लबों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पहुंच कर जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। शहर में लायन्स क्लब द्वारा महाराणा भूपाल सार्वजनिक चिकित्सालय सहित शहर के अनेक स्थानों पर स्थायी सेवा

(संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किया है ताकि आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी विशेषताओं को संरक्षित, प्रबंधित और अनुरक्षित किया जा सके। उक्त नियमों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, ठोस अपशिष्ट की डंपिंग, उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अनुपचारित अपशिष्ट और बर्हिंशाल के निस्सरण जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वैच्छिक आर्द्रभूमि शहर प्रत्यानयन योजना के तहत आर्द्रभूमि शहर प्रत्यानयन हेतु रामसर सचिवालय को

भारत के उदयपुर, राजस्थान के नामांकन का प्रस्ताव भेजा है।

राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम, उदयपुर द्वारा झील के संरक्षण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उदयपुर शहर में 202.77 किमी. की सीवर लाइन बिछाई गई है।

अपशिष्ट जल के शोधन के लिए 40 एमएलडी क्षमता वाले 03 मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है और झीलों में अपशिष्ट जल को बहने से रोकने के लिए पिछेला झील के आसपास 7 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

### बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्टर को दिया ज्ञापन

उदयपुर। लोकतंत्र रक्षा मंच ने आज बांग्लादेश में लोकतंत्र पर हो रहे कुठाराघात व हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा अचित कार्योंवाही किये जाने के सुदर्भ में प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृहमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संभागा संयोजक दलपत



कार्य संचालित किये जा रहे हैं जिससे हजारों लोग लाभाभित हो रहे है।

लायन्स क्लब के हरीश आचार्य के बताया कि 11 दिसम्बर को शाम को होटल रमाडा एनकोर मे लायन्स क्लब के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रेन्सियो आंलीवीरा व उनकी पत्नी एमरीलेस आंलीवीरा के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा जिसमें दान देने वाले मुख्य लोगों एवं लायन्स क्लब के चुनिन्दा सदस्यों को मेडल एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जायेगा।

लायन्स क्लब उदयपुर के जी.के.सोमानी ने बताया कि 12 दिसम्बर को लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष फ्रेन्सियो आंलीवीरा लायन्स प्रान्त 3233ई-2 के प्रान्तपालों व पूर्व प्रान्तपालों की बैठक लेकर भावी सेवा कार्यों पर चर्चा करेंगे। लायन्स क्लब के रिजन चेयरमैन लायन के.वी.रमेश ने बताया कि 12 को ही सिटी पैलेस में अध्यक्ष आंलीवीरा की लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ के साथ मुलाकात होगी। शाम को वे उदयपुर के भ्रमण करेंगे और 13 को बेंगलुरु के लिये प्रस्थान करेंगे।